



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25—दिसम्बर 1, 2006 (अग्रहायण 4, 1928)  
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25—DECEMBER 1, 2006 (AGRAHAYANA 4, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय  
(थल सेना विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2006

संख्या 580, दिनांक 25 अक्टूबर 2006—राष्ट्रपति निम्नलिखित  
पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

गढ़वाल राइफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भुवनेश्वर प्रसाद कुरियाल (सं. 4068445के अब जेसी-529998एन), 01 फरवरी 2006

हवलदार धन सिंह (सं. 4066255वाई अब जेसी-529999डब्ल्यू), 01 मार्च 2006

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 4065419एक्स अब जेसी-530000एक्स), 24 अप्रैल 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 4065352के अब जेसी-530001ए), 24 अप्रैल 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार जयमल सिंह (सं. 4064912वाई अब जेसी-530002एच), 01 अप्रैल 2006

हवलदार सोबत सिंह (सं. 4063564डब्ल्यू अब जेसी-530003एल), 01 अप्रैल 2006

हवलदार सुरेन्द्र सिंह नेगी (सं. 4065152एन अब जेसी-530005डब्ल्यू), 01 मई 2006

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 4065802डब्ल्यू अब जेसी-530006वाई), 15 मई 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार शिशुपाल लाल (सं. 4066206डब्ल्यू अब जेसी-530007एफ), 21 मई 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार चन्द्र सिंह (सं. 4066142डब्ल्यू अब जेसी-530008के),  
17 मई 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार रघुबीर सिंह (सं. 4069814एच अब जेसी-530009एम),  
27 मई 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार विजय सिंह (सं. 4065670एन अब जेसी-530010एफ),  
01 जून 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) फर्जन्द अली (सं. 4067073एक्स अब जेसी-530004एन), 01 मई 2006

डोगरा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजेश कुमार (सं. 3988818एन अब जेसी-520364डब्ल्यू),  
01 फरवरी 2006

हवलदार कमलजीत (सं. 3989848एक्स अब जेसी-520365वाई),  
01 मार्च 2006

हवलदार बलदेव राम (सं. 3983604एन अब जेसी-520366एफ),  
01 जुलाई 2006+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार राजू राम (सं. 3983127एक्स अब जेसी-520367के),  
05 मई 2006

हवलदार सुरिन्द्र कुमार (सं. 3984274एम अब जेसी-520368एम),  
01 जून 2006

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार जी.डी. के रैंक में

हवलदार सुखराज (सं. 13748304एफ अब जेसी-580268एल),  
21 फरवरी 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार पुरन चन्द (सं. 13749273वाई अब जेसी-580269एन),  
11 जुलाई 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुभाष चन्द (सं. 13748316डब्ल्यू अब जेसी-580270एच),  
21 फरवरी 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार दलजीत सिंह (सं. 13748321एफ अब जेसी-580271एल),  
21 फरवरी 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अमर सिंह (सं. 13747933एम अब जेसी-580272एन),  
10 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जगत सिंह (सं. 13747935एक्स अब जेसी-580273डब्ल्यू),  
01 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार लाल बहादुर सुबा (सं. 13747395के अब जेसी-580274वाई), 16 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राविन्दर सिंह (सं. 13747733डब्ल्यू अब जेसी-580275एफ), 01 जून 2006

हवलदार कमलेश कुमार (सं. 13748668एन अब जेसी-580276के), 20 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राम लाल (सं. 13748274पी अब जेसी-580277एम),  
01 जुलाई 2006

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 13748276ए अब जेसी-580278पी),  
15 जुलाई 2006

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जायेगी)

पंजाब रेजिमेंट

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क सत्य नारायण सिंह (सं. 2477280वाई अब जेसी-429924के), 21 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार क्लर्क बलकार सिंह (सं. 2477319ए अब जेसी-429946एच), 25 सितम्बर 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार क्लर्क गुरनायब सिंह (सं. 2477274एल अब जेसी-429925एम), 31 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार क्लर्क स्वर्ण सिंह (सं. 2477320पी अब जेसी-429926पी),  
31 अक्टूबर 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार क्लर्क अश्वनी कुमार शर्मा (सं. 2477331एफ अब जेसी-429927एक्स), 04 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार क्लर्क राम सिंह (सं. 2476378ए अब जेसी-429928ए),  
04 नवम्बर 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार क्लर्क जसवीर सिंह तुर (सं. 2477370एम अब जेसी-429947एल), 17 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार क्लर्क राम पाल सिंह राणा (सं. 2477373एच अब जेसी-429948एल), 21 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार क्लर्क रविन्दर सिंह ठाकुर (सं. 2477376एफ अब जेसी-429949एन), 27 दिसम्बर 2005

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार क्लर्क समसन पाल सिंह (सं. 15359574पी अब जेसी-429950एल), 04 जनवरी 2006

(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार क्लर्क बाबु खान (सं. 2480218एक्स अब जेसी-429974पी),  
01 जनवरी 2006

हवलदार क्लर्क सी वी एस आर जानकी राम (सं. 2481793एल अब जेसी-429951एन), 01 जनवरी 2006

हवलदार क्लर्क यमौ चिन्ना बाबु (सं. 2482252डब्ल्यू अब जेसी-429992एक्स), 01 अप्रैल 2006

हवलदार क्लर्क राजेश कुमार (सं. 2482643एफ अब जेसी-429993ए), 01 अप्रैल 2006

हवलदार क्लर्क नछत्तर सिंह (सं. 2477379पी अब जेसी-430021वाई), 01 मई 2006

हवलदार क्लर्क राम करन (सं. 2483105ए अब जेसी-430022एफ),  
01 जून 2006

हवलदार क्लर्क गोपाल सिंह (सं. 2477123एम अब जेसी-430023के),  
01 जून 2006

हवलदार क्लर्क कुलवन्त सिंह (सं. 2477390एन अब जेसी-430045एच), 01 जुलाई 2006

हवलदार क्लर्क वीर पाल सिंह राणा (सं. 2477400एम अब जेसी-430046एल), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धरम चन्द (सं. 2478477एफ अब जेसी-429994एच),  
02 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

हवलदार सत पाल (सं. 2475331एच अब जेसी-429995एल),  
02 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार फरगत सिंह (सं. 2479207वाई अब जेसी-429975एक्स),  
18 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार भूशन लाल (सं. 2475338एम अब जेसी-429996एन),  
21 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार छन्नु राम (सं. 2475777एक्स अब जेसी-429976ए),  
02 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

हवलदार विरेन्दर सिंह (सं. 2475409एच अब जेसी-429997डब्ल्यू),  
21 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार कंचन कुमार (सं. 2476073ए अब जेसी-429977एच),  
23 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार बुटी राम (सं. 2474814एन अब जेसी-429978एल),  
12 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार धर्म सिंह (सं. 2478086डब्ल्यू अब जेसी-429979एन),  
04 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
20 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार गुरमेज सिंह (सं. 2479216ए अब जेसी-429980एच),  
09 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 2479137एल अब जेसी-429981एल),  
05 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार शिव कुमार (सं. 2475094के अब जेसी-429982एन),  
12 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार हंस राज (सं. 2477093ए अब जेसी-429983डब्ल्यू),  
13 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
09 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार सतीश कुमार (सं. 2474745एच अब जेसी-429998वाई),  
20 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
25 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार राज कुमार (सं. 2475217एल अब जेसी-429999एफ),  
10 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
25 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार जगीर सिंह (सं. 2474630पी अब जेसी-430000एच),  
22 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 2475644एफ अब जेसी-429984वाई),  
01 मार्च 2006

हवलदार बख्शीस सिंह (सं. 2478306पी अब जेसी-430001एल),  
02 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार इकबाल सिंह लखनपाल (सं. 2478783डब्ल्यू अब  
जेसी-429985एफ), 04 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार सुचा सिंह (सं. 2479332एच अब जेसी-429986के),  
18 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार राम पौल सिंह (सं. 2479956पी अब जेसी-430002एन),  
28 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार जगजीत सिंह (सं. 2479567पी अब जेसी-430003डब्ल्यू),  
28 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार कुलविन्दर सिंह (सं. 2478117एल अब जेसी-429987एम),  
16 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार मही पाल (सं. 2475422एम अब जेसी-430004वाई),  
21 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 2476547डब्ल्यू अब जेसी-429988पी),  
09 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार सन्धोख सिंह (सं. 2475568ए अब जेसी-429989एक्स),  
06 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार तेन सिंह (सं. 2476488पी अब जेसी-429990एम),  
01 मार्च 2006

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 2476666एम अब जेसी-429991पी),  
01 मार्च 2006

हवलदार हरदेव सिंह (सं. 2476779पी अब जेसी-430005एफ),  
01 अप्रैल 2006

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 2481154के अब जेसी-430006के),  
10 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 2475424एक्स अब जेसी-430007एम),  
21 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

हवलदार धुप सिंह (सं. 2475510एच अब जेसी-430008पी),  
18 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

हवलदार मदन कुमार (सं. 2475643वाई अब जेसी-430009एक्स),  
01 अप्रैल 2006

जाट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजेन्द्र सिंह पनवर (सं. 3180104के अब जेसी-  
489858डब्ल्यू), 11 मई 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 12 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार सतीश कुमार (सं. 3188507वाई अब जेसी-489859वाई),  
01 मई 2006

हवलदार रोहताश सिंह (सं. 3176869एन अब जेसी-489860एन),  
29 मई 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 10 मई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार नवल किशोर यादव (सं. 3175909एक्स अब  
जेसी-489861डब्ल्यू), 01 जून 2006

हवलदार सतबीर सिंह (सं. 3180134एफ अब जेसी-489862वाई),  
20 जून 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 3182992एच अब जेसी-489863एफ),  
01 जून 2006

हवलदार दलीप सिंह जाट (सं. 3178280एच अब जेसी-489864के),  
01 जून 2006

हवलदार प्रताप सिंह (सं. 3180470एन अब जेसी-489865एम),  
13 जून 2006

हवलदार अर्जुन दत्त (सं. 3180354एल अब जेसी-489866पी),  
01 जुलाई 2006

हवलदार प्रमोद सिंह (सं. 3183303एच अब जेसी-489867एक्स),  
01 जुलाई 2006

हवलदार मोहन लाल गुजर (सं. 3176392के अब जेसी-489868ए),  
01 अगस्त 2006

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं. 3177021एन अब जेसी-489869एच),  
01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) उदय नारायण (सं. 3178060वाई अब जेसी-  
489870एक्स), 01 जुलाई 2006

हवलदार (लिपिक) ओमकार सिंह (सं. 3178070एच अब जेसी-  
489871ए), 01 जुलाई 2006

सिक्ख रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मोहब्बत सिंह (सं. 3383627एक्स अब जेसी-499730वाई),  
15 मई 2006

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2006

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 3384309ए अब जेसी-499731एफ),  
13 जुलाई, 2006

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
28 मार्च 2006।

हवलदार जसविंदर सिंह (सं. 3386356डब्ल्यू अब जेसी-499732के),  
27 जून 2006

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2006।

हवलदार सेवा सिंह (सं. 3385903एन अब जेसी-499733एम),  
06 जुलाई, 2006

नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2006

मद्रास रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार एस आरूमूगम (सं. 2590065एफ अब जेसी-439667एल),  
31 मार्च 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून, 2005 से दी जायेगी)

हवलदार बालासाब भदरगडे (सं. 2591451ए अब जेसी-439682ए),  
24 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
1 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार कोरापट्टी सिवकुमार (सं. 2596294एच अब जेसी-  
439684एल), 18 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार मोहन पी (सं. 2587474के अब जेसी-439713पी),  
28 जून 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राजेश ए एल (सं. 3391303एफ अब जेसी-439714एक्स),  
06 जुलाई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
16 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार वी रामासुब्रामनियन (सं. 2593634पी अब जेसी-439715ए),  
15 जुलाई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
12 जून 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार ब्रिज मोहन (सं. 9089242एच अब जेसी-593434एम),  
16 जून 2006

(नायब सूबेदार रैंक में 02 अक्टूबर 2005 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार परताप सिंह (सं. 9087004एक्स अब जेसी-593435पी),  
10 जून 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में 06 मार्च 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोती लाल (सं. 9086752वाई अब जेसी-593436एक्स),  
15 मई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में 19 मार्च 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार राम पाल (सं. 9088524पी अब जेसी-593437ए), 08 जून  
2006

(नायब सूबेदार के रैंक में 20 मार्च 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अब्दुल रशीद डार (सं. 9084890एफ अब  
जेसी-593438एच), 01 जून 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में 16 अप्रैल 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार शमिंदर सिंह (सं. 9087355एम अब जेसी-593439एल),  
01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (लिपिक) की पदोन्नति के लिए

हवलदार (लिपिक) के बेंकटा रमन (सं. 9089440एन अब  
जेसी-593440ए), 09 जून 2006

[नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 अप्रैल 2006 से वरिष्ठता दी  
जाती है]

हवलदार (लिपिक) सुरेश कुमार के (सं. 9089441डब्ल्यू अब  
जेसी-593441एच), 01 जून 2006

हवलदार (लिपिक) उमा कंता महापात्रो (सं. 9089442वाई अब  
जेसी-593444डब्ल्यू), 22 जुलाई 2006

[नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 जून 2006 से वरिष्ठता दी  
जाती है]

बिहार रेजिमेंट

नायब सूबेदार ((जीडी)) के रैंक में

कम्पनी हवलदार मेजर सुनील कुमार सिंह (सं. 4266553वाई अब  
जेसी-559631एच), 24 मार्च 2006/01 जून 2005 (सांकेतिक ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
सांकेतिक ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर जोसेफ टोपनो (सं. 4262982एच अब  
जेसी-559632एल), 18 अप्रैल 2006/01 जुलाई 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

हवलदार राम प्रकाश यादव (सं. 4262026ए अब जेसी-559633एन),  
12 मई 2006/06 नवम्बर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 06 नवम्बर 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर रघुबर यादव (सं. 4262864पी अब  
जेसी-559634डब्ल्यू), 21 मार्च 2006/01 दिसम्बर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार उपेन्द्र भगत (सं. 4262128डब्ल्यू अब जेसी-559635वाई),  
10 अप्रैल 2006/01 दिसम्बर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

हवलदार रवीन्द्र शाह (सं. 4263097एन अब जेसी-559636एफ),  
09 अप्रैल 2006/01 दिसम्बर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर सुबल गर्तिया (सं. 4263876डब्ल्यू अब  
जेसी-559637के), 27 मार्च 2006/22 दिसम्बर 2005 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 22 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार प्रदीप बेक (सं. 4269448एन अब  
जेसी-559638एम), 22 मार्च 2006/01 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर राजेश्वर शर्मा (सं. 4261246एक्स अब  
जेसी-559639पी), 23 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार मेजर रामजी सिंह (सं. 4261261एम  
अब जेसी-559640के), 23 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार नवल किशोर सिंह (सं. 4260616ए अब जेसी-559641एम),  
07 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार तुरम हेम्ब्रम (सं. 4263901के अब जेसी-559642पी),  
12 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार पूर्णा नन्द गरनायक (सं. 4264028के अब जेसी- 559643 एक्स), 23 अप्रैल 2006/01 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार चन्द्र भूषण कुमार सिंह (सं. 4265965एन अब जेसी-559644ए), 08 मई 2006/11 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 11 जनवरी 2006 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर गोविन्द चन्द्र माझी (सं. 4262629डब्ल्यू अब जेसी-559645एच), 02 मई 2006/15 जनवरी 2006 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 15 जनवरी 2006 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर बाजीत लाल (सं. 4262112एल अब जेसी-559646एल), 10 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार यादव लाल शर्मा (सं. 4262550एन अब जेसी-559647एन), 26 अप्रैल 2006/26 फरवरी 2006 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 26 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार चुन्दा हन्सदा (सं. 4262220पी अब जेसी-559648डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर ओम प्रकाश पाण्डेय (सं. 4263082एल अब जेसी-559649वाई), 24 अप्रैल 2006/12 मार्च 2006 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 12 मार्च 2006 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर अवधेश कुमार सिंह (सं. 4266061ए अब जेसी-559650एन), 26 अप्रैल 2006/20 मार्च 2006 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 20 मार्च 2006 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक ((जीडी)) के रैंक में

हवलदार/लिपिक शिव प्रकाश तिवारी (सं. 4265097एम अब जेसी-559651डब्ल्यू), 25 अप्रैल 2006/27 मार्च 2006 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 27 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक देशराज (सं. 4265222एल अब जेसी-559652वाई), 21 अप्रैल 2006/27 मार्च 2006 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 27 मार्च 2006 से दी जाती है)

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार सतबीर सिंह (सं. 2881712एन अब जेसी-469877ए), 13 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 दी जायेगी)

हवलदार जुर्गेदा सिंह (सं. 2883590एन अब जेसी-469878एच), 28 फरवरी 2006/08 फरवरी 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 फरवरी 2006 दी जायेगी)

हवलदार सत्यवीर सिंह (सं. 2884377ए अब जेसी-469879एल), 22 अप्रैल 2006/08 फरवरी 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 फरवरी 2006 दी जायेगी)

हवलदार सत्यपाल सिंह (सं. 2883580के अब जेसी-469880ए), 05 मार्च 2006/10 फरवरी 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 फरवरी 2006 दी जायेगी)

हवलदार दयानंद (सं. 2883117एच अब जेसी-469881एच), 25 अप्रैल 2006/14 फरवरी 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 फरवरी 2006 दी जायेगी)

हवलदार जयपाल सिंह (सं. 2880086एच अब जेसी-469882एल), 01 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 दी जायेगी)

हवलदार ओमपाल सिंह (सं. 2881482एल अब जेसी-469883एन), 06 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 दी जायेगी)

हवलदार महिपाल सिंह परिहार (सं. 2882999एच अब जेसी-469884डब्ल्यू), 22 अप्रैल 2006/21 मार्च 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मार्च 2006 दी जायेगी)

हवलदार विरेंद्र कुमार (सं. 2883029एम अब जेसी-469885वाई), 05 मई 2006/01 अप्रैल 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 दी जायेगी)

हवलदार अजीत सिंह (सं. 2882518एल अब जेसी-469886एफ), 20 जून 2006/01 अप्रैल 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 दी जायेगी)

हवलदार रतिपाल सिंह (सं. 2883153एन अब जेसी-469887के),  
10 मई 2006/01 अप्रैल 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 दी जायेगी)

हवलदार महेश सिंह (सं. 3989705एक्स अब जेसी-469888एम),  
22 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 दी जायेगी)

हवलदार शिव राज सिंह भदोरीया (सं. 2880951डब्ल्यू अब  
जेसी-469889पी), 13 जुलाई 2006/01 जून 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2006 दी जायेगी)

हवलदार नैन सिंह राजपूत (सं. 2884907के अब जेसी-469890के),  
10 जुलाई 2006/01 जून 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2006 दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क नवल सिंह राठौड़ (सं. 2881596डब्ल्यू अब  
जेसी-469891एम), 01 जुलाई 2006

हवलदार क्लर्क शम्भु सिंह (सं. 2881597वाई अब जेसी-469892पी),  
14 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क महिपाल सिंह (सं. 2880950एन अब  
जेसी-469893एक्स), 01 जुलाई 2006

हवलदार क्लर्क रामा शंकर तिवारी (सं. 2881830एफ अब  
जेसी-469894ए), 01 जुलाई 2006

हवलदार कासी सिंह (सं. 2879736वाई अब जेसी-469895एच),  
09 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 दी जायेगी)

हवलदार दर्वेद्र सिंह (सं. 2880862एक्स अब जेसी-469896एल),  
09 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 दी जायेगी)

हवलदार देवी सिंह (सं. 2881815एम अब जेसी-469897एन),  
13 जुलाई 2006/01 जुलाई 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 दी जायेगी)

### पैराशूट रेजिमेंट

#### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार महेन्द्र सिंह राघव (सं. 2986260पी अब जेसी-413077पी),  
27 जून 2006xx

xx(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 13 जून 2006)

हवलदार सुरेश पाल (सं. 3180016एन अब जेसी-413078एक्स),  
16 जून 2006

हवलदार खुशी राम (सं. 13616883डब्ल्यू अब जेसी-413080पी),  
07 जुलाई 2006xx

xx(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2006)

हवलदार रमेश कुमार (सं. 2784322एफ अब जेसी-413081एक्स),  
01 मई 2006

हवलदार हरपाल सिंह (सं. 2785168ए अब जेसी-413082ए), 01 मई  
2006

हवलदार चंद्रा मोहन छत्र (सं. 13616870वाई अब जेसी-413083एच),  
01 मई 2006

हवलदार नन्दा बल्लभ (सं. 13615890ए अब जेसी-413084एल),  
01 अगस्त 2006

हवलदार सुरजित सिंह (सं. 13617009ए अब जेसी-413085एन),  
01 अगस्त 2006

हवलदार युधवीर सिंह (सं. 13617025ए अब जेसी-413086डब्ल्यू),  
01 अगस्त 2006

#### नायब सूबेदार (लिपिक)

हवलदार (लिपिक) मंजीत सिंह (सं. 13616751एच अब  
जेसी-413079ए), 01 जुलाई 2006

#### जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैंट्री

#### सूबेदार (लिपिक) की पदोन्नति के लिए

नायब सूबेदार (लिपिक) रुक्म पाल सिंह चौहान (जेसी-593016एक्स),  
20 अप्रैल 2006

[सूबेदार (लिपिक) रैंक में 01 अप्रैल 2006 से वरिष्ठता दी जाती है।]

#### जाट रेजीमेंट

#### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जय सिंह (जेसी-205125एल), 12 फरवरी 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार धर्म सिंह (जेसी-224563एच), 23 फरवरी 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2004 से दी जायेगी)



सूबेदार राम कुमार सिंह (जेसी-205132एफ), 01 मई 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार जय पाल (जेसी-488076एन), 01 जनवरी 2004

सूबेदार धर्म सिंह (जेसी-488104पी), 01 जनवरी 2004

सूबेदार ज्ञाना राम जाखड़ (जेसी-488183पी), 01 फरवरी 2004

सूबेदार हरी सिंह (जेसी-218480एफ), 01 मई 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार भगवाना राम (जेसी-488089एल), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार कान सिंह (जेसी-488321एल), 26 मई 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार रंगपाल सिंह थोलिया (जेसी-222679ए), 01 मई 2004

सूबेदार राम देव राम (जेसी-224411एफ), 05 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार लाला राम (जेसी-488016वाई), 01 मई 2004

सूबेदार हवा सिंह (जेसी-488027एल), 03 मई 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार बलराम गुजर (जेसी-222677पी), 01 जून 2004

सूबेदार राम स्वरूप (जेसी-488061एल), 01 जून 2004

सूबेदार तेजवीर सिंह (जेसी-488114वाई), 04 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-488164के), 10 दिसम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार दीवान सिंह (जेसी-488189डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004

सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-488257वाई), 01 अगस्त 2004

सूबेदार रघुवीर सिंह (जेसी-211077एम), 25 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार सुरज भान (जेसी-488042ए), 04 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार जय भगवान (जेसी-208364एल), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार जुगेन्द्र सिंह (जेसी-488070एम), 16 अक्टूबर 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-488259के), 04 दिसम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार जूवना राम (जेसी-488138एच), 16 जनवरी 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार उत्तम सिंह (जेसी-488318एल), 20 जनवरी 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार रोहिताश्व जाट (जेसी-488216पी), 21 जनवरी 2005

सूबेदार भगवाना राम (जेसी-488596वाई), 01 जून 2005

सूबेदार ओम प्रकाश धुल (जेसी-488638ए), 01 जुलाई 2005

सूबेदार जगबीर सिंह दहीया (जेसी-528322वाई), 01 जुलाई 2005

सूबेदार हरी सिंह (जेसी-488462ए), 01 जुलाई 2005

सूबेदार पुसा राम (जेसी-488039ए), 01 अगस्त 2005

सूबेदार चन्द्र पाल सिंह (जेसी-488384एन), 01 अगस्त 2005

सूबेदार भूरा राम टंडी (जेसी-488153एक्स), 01 अगस्त 2005

सूबेदार करन सिंह (जेसी-488152पी), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार कर्मवीर (जेसी-488065एफ), 10 अक्टूबर 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार जयमल सिंह चहल (जेसी-488287डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार हरफूल सिंह (जेसी-488308एफ), 07 नवम्बर 2005 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) इन्द्र सिंह जाखड़ (जेसी-488009एच), 21 अप्रैल 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सूबेदार (धर्म शिक्षक) अजब लाल शर्मा (जेसी-111751डब्ल्यू), 10 जून 2006 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

## मद्रास रेजिमेंट

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार टी शिवा मूनि रेड्डी (जेसी-439182एच), 22 मई 2006  
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरीयता  
18 मार्च 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार नल्लातम्बी (जेसी-439200ए), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार कोक्कान्ति वेंकट रमणा रेड्डी (जेसी-439370के),  
12 मई 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरीयता  
01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार एच ए चित्रपा (जेसी-439098एच), 01 मई 2006

नायब सूबेदार चाको के (जेसी-439183एल), 22 मई 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरीयता  
01 मई 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सूरेशन पी (जेसी-439272के), 31 मई 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरीयता  
01 मई 2006 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार दिवाकरन के (जेसी-439234एन), 02 जुलाई 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरीयता  
01 मई 2006 से दी जाएगी)

## डोगरा रेजीमेंट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सतीश चन्द्र (जेसी-518839डब्ल्यू), 15 मई 2006+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2006 से)

## सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार लिपिक दमोदर दत्त (जेसी-518590पी), 02 मई 2006+

+(सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से)

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार गिरधारी लाल (जेसी-519640एफ), 08 फरवरी 2006+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
18 अक्टूबर 2005 से)

नायब सूबेदार कृष्ण देव (जेसी-519689एक्स), 17 अप्रैल 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
17 नवम्बर 2005 से)

नायब सूबेदार तुलसी राम (जेसी-519749एफ), 15 मई 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
26 दिसम्बर 2005 से)

नायब सूबेदार सुरिन्द्र कुमार (जेसी-519863वाई), 24 मई 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
16 फरवरी 2006 से)

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-519734वाई), 15 मई 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 अप्रैल 2006 से)

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जेसी-519735एफ), 15 मई 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
22 अप्रैल 2006 से)

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार धर्म पाल (जेसी-518968डब्ल्यू), 14 जुलाई 2006+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जुलाई 2006 से)

सूबेदार काबल सिंह (जेसी-518847पी), 01 जुलाई 2006

## सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार लिपिक केवल सिंह धीमान (जेसी-518657एच), 03 जुलाई  
2006+

+(सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से)

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुरजन सिंह (जेसी-519828डब्ल्यू), 01 जून 2005

नायब सूबेदार ज्ञान चन्द (जेसी-519534एच), 17 जून 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
20 दिसम्बर 2005 से)

नायब सूबेदार देसराज भदवाल (जेसी-519681एल), 01 फरवरी  
2006

नायब सूबेदार समराज सिंह (जेसी-519760ए), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार रूप लाल (जेसी-519830एन), 10 जून 2006+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
30 अप्रैल 2006 से)

नायब सूबेदार सुशील कुमार (जेसी-519761एच), 01 जून 2006

## महार रेजीमेंट

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार आसू राम (जेसी-569022एम), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार उत्तम तुकाराम रनवीर (जेसी-569282एक्स),  
01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार दिलीप विसन तायडे (जेसी-569283ए), 01 सितम्बर  
2005

नायब सूबेदार रामाधर नारोत्तम तैम्भूरकर (जेसी-569354डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-569350ए), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-569377एक्स), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार सुरेश सिंह (जेसी-569379एच), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार कृष्ण चन्द्र (जेसी-569127डब्ल्यू), 05 नवम्बर 2005@  
@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 23 सितम्बर 2005)

नायब सूबेदार विश्वानाथ घोष (जेसी-569089एल), 01 अक्टूबर  
2005

नायब सूबेदार मोहम्मद मिजानूर हक मन्डल (जेसी-569096एफ),  
01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार कनकाल सुभाष विश्वनाथ (जेसी-569284एच),  
12 अक्टूबर 2005@@

@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005)

नायब सूबेदार मन मोहन सिंह (जेसी-569402एल), 01 अक्टूबर  
2005

नायब सूबेदार राम कुनवर (जेसी-569097के), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार काम्बले आकाश रामचन्द्र (जेसी-569198एक्स),  
01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार राजन लाल (जेसी-569259के), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार गुरदयाल सिंह (जेसी-569368डब्ल्यू), 01 नवम्बर  
2005

नायब सूबेदार श्रीकान्त पाण्डे (जेसी-569339एफ), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-569364ए), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार मोहम्मद वीरजाहान (जेसी-569151एम), 01 दिसम्बर  
2005

नायब सूबेदार आबनावे रमेश ववन (जेसी-569191एन), 28 जनवरी  
2006@@@

@@@ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2005)

नायब सूबेदार जाले सिंह (जेसी-569210एन), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार सन्ताप सिंह (जेसी-569225डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार लाल बहादुर सिंह (जेसी-569055एक्स), 29 दिसम्बर  
2005

#### सिख रेजीमेंट

##### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कुलवंत सिंह (जेसी-498385के), 02 जनवरी 2006

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2005)

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-499102के), 10 मार्च 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
15 जनवरी 2006)

नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-499086एक्स), 10 मई 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
24 फरवरी 2006)

नायब सूबेदार जमीत सिंह (जेसी-499244एफ), 04 जुलाई 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
21 अप्रैल 2005)

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-499303एच), 05 जून 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2006)

नायब सूबेदार बुआ सिंह (जेसी-499280एम), 20 जून 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2006)

##### सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क धर्मवीर सिंह (जेसी-499215एम), 22 जून  
2006

(सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2006)

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-499241एन), 14 जुलाई 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जनवरी 2006)

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-499302ए), 30 मई 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2006)

नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-499182एम), 01 जुलाई 2006

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून 2006)

नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-499285एल), 01 अगस्त 2006

##### सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क मनजीत सिंह (जेसी-499233पी), 01 अगस्त  
2006

## पैराशूट रेजीमेंट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार लक्ष्मी नारायण (जेसी-210890एच), 01 जुलाई 2006

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-412797के), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-412794डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार प्रेमा राम जाट (जेसी-412752के), 23 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार राम स्वरूप (जेसी-412747वाई), 23 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-412668के), 01 मई 2006

नायब सूबेदार मद्या राम खिलारी (जेसी-412669एम), 01 मई 2006

नायब सूबेदार शुभ राम पुनिया (जेसी-412756ए), 13 जून 2006

## सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) एन ईन्नुसुदन (जेसी-412595एच), 01 जून 2006

## जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

## नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार अशोक कुमार (सं. 9086883के अब जेसी-593445वाई), 02 जुलाई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में 20 मार्च 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अब्दुल मजिद भट (सं. 9085921एच अब जेसी-593446एफ), 14 जुलाई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में 20 अप्रैल 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहमद अकबर गनाई (सं. 9086796डब्ल्यू अब जेसी-593448एम), 14 जुलाई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में 06 मई 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार कुलदीप राज (सं. 9087038एल अब जेसी-593449पी), 15 जुलाई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में 01 जुलाई 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

## नायब सूबेदार (लिपिक) की पदोन्नति के लिए

हवलदार (लिपिक) दिगम्बर सिंह (सं. 3989541एम अब जेसी-593450के), 03 जुलाई 2006

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 जुलाई 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) नूर सिंह यादव (सं. 9089470एल अब जेसी-593447के), 16 अगस्त 2006

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 अगस्त 2006 से वरिष्ठता दी जाती है)

## 8 जी आर

## नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार यम बहादुर जी सी (सं. 5751272के अब जेसी-623696ए), 18 जून 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार गुन बहादुर थापा (सं. 5751985पी अब जेसी-623697एच), 20 जून 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार भरत बहादुर राना (सं. 5751403के अब जेसी-623698एल), 18 जून 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)

हवलदार बल बहादुर रोका (सं. 5751098एच अब जेसी-523699एन), 01 जुलाई 2006

हवलदार पुर्न बहादुर गुरुंग (सं. 5751117एच अब जेसी-623700एक्स), 01 जुलाई 2006

## 5 जी आर (एफ एफ)

## नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार टोप बहादुर थापा (सं. 5449192पी अब जेसी-617799एच), 01 जुलाई 2006

हवलदार गम बहादुर पुन (सं. 5450083पी अब जेसी-617800एम), 11 जुलाई 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार खेम नारायण श्रेष्ठ (सं. 5449987एच अब जेसी-617802एक्स), 01 अगस्त 2006

हवलदार तेजेंद्र बहादुर थापा (सं. 5450433डब्ल्यू अब जेसी-617803ए), 01 अगस्त 2006

## नायब सूबेदार (लिपिक) (जीडी) के रैंक में

हवलदार/लिपिक विनय कुमार सिंह (सं. 5449973एच अब जेसी-617794के), 06 मई 2006 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार/लिपिक सुरेश चंद्र गोदारा (सं. 5450221एल अब जेसी-617801पी), 01 जुलाई 2006

## विशेष सूची

8 जी आर

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक दुर्गा प्रसाद गौतम (सं. 5750798के अब जेसी-623688एफ), 01 जुलाई 2006

हवलदार लिपिक हर्वन्स लाल डोगरा (सं. 5750812एल अब जेसी-623689के), 01 जुलाई 2006

हवलदार लिपिक सत्य पाल यादव (सं. 5750931एफ अब जेसी-623690वाई), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार/जी डी के रैंक में

हवलदार रन बहादुर श्रेष्ठ (सं. 5751236वाई अब जेसी-623691एफ), 05 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार दुर्गा बहादुर राना (सं. 5751528एफ अब जेसी-623692के), 05 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार रित बहादुर पुन (सं. 5752224डब्ल्यू अब जेसी-623693एम), 05 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार राजेन्द्र बहादुर राना (सं. 5751513वाई अब जेसी-623694पी), 05 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार दल बहादुर पचाई (सं. 5751697एच अब जेसी-623695एक्स), 05 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार लोक मान गुरुंग (सं. 5751792पी अब जेसी-623683एच), 15 मार्च 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार राज बहादुर थापा मगर (सं. 5751246एच अब जेसी-623685एन), 03 मार्च 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

हवलदार कृष्ण बहादुर गुरुंग (सं. 5750616एल अब जेसी-623686डब्ल्यू), 12 अप्रैल 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

हवलदार बुद्धि मान गुरुंग (सं. 575146एम अब जेसी-623687वाई), 14 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाएगी)

महार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक मनोज कुमार पात्रा (सं. 4554561के अब जेसी-569597एफ), 21 मई 2005\*

\*बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2005

हवलदार लिपिक बाला सुब्रा-मनियन (सं. 4554778एन अब जेसी-569617के), 07 अगस्त 2005@

@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2005

हवलदार लिपिक अवधेश कुमार (सं. 4556073ए अब जेसी-569618एम), 10 अगस्त 2005\$

\$बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2005

हवलदार लिपिक देश राज (सं. 4556074एच अब जेसी-569619पी), 01 सितम्बर 2005

हवलदार लिपिक कुलविन्दर सिंह (सं. 3383252के अब जेसी-569620के), 01 सितम्बर 2005

हवलदार लिपिक नरेश बाबू (सं. 4556071पी अब जेसी-569666एम), 09 नवम्बर 2005#

#बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005

हवलदार लिपिक शिवनाथ सिंह (सं. 4556240एल अब जेसी-569667पी), 24 अक्टूबर 2005%

%बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2005

हवलदार लिपिक बलवंत सिंह (सं. 4553899एच अब जेसी-569674एल), 01 दिसम्बर 2005

हवलदार लिपिक सुखबीर (सं. 4556075एल अब जेसी-569675एन), 02 जनवरी 2006\*\*

\*\*बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2006

हवलदार लिपिक रामेश्वर सिंह (सं. 4556292एफ अब जेसी-569692एन), 04 फरवरी 2006@@

@@बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006

हवलदार लिपिक राजेन्द्र सिंह (सं. 4553591पी अब जेसी-569693डब्ल्यू), 03 फरवरी 2006\$\$

\$\$बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006

हवलदार लिपिक सुमरे सिंह (सं. 4555094के अब जेसी-569694वाई), 01 फरवरी 2006

हवलदार लिपिक जलालुद्दीन (सं. 4556315एक्स अब जेसी-569695एफ), 18 फरवरी 2006##

##बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2006

हवलदार लिपिक शलिस कुमार ठाकुर (सं. 4556317एच अब जेसी-569754एच), 01 अप्रैल 2006

हवलदार लिपिक हनुमान सिंह चौहान (सं. 4556318एल अब जेसी-569755एल), 05 अप्रैल 2006\*\*\*

\*\*\*बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2006

हवलदार लिपिक सुर्यवंशी सुर्यकांत नागनाथ (सं. 4556368डब्ल्यू अब जेसी-569757डब्ल्यू), 01 मई 2006

हवलदार लिपिक देवाराम चौधरी (सं. 4555769वाई अब जेसी-569758वाई), 01 मई 2006

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार जी. डी. के रैंक में

हवलदार नन्द लाल (सं. 13748586एल अब जेसी-580279एक्स), 05 मई 2006\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी।

हवलदार ध्यान सिंह (सं. 13748500एफ अब जेसी-580280एम), 10 अगस्त 2006\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी।

हवलदार टेक चन्द (सं. 13750922एल अब जेसी-580281पी), 24 जुलाई 2006\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी।

हवलदार प्रदीप तमंग (सं. 13749054एक्स अब जेसी-580282एक्स), 29 जुलाई 2006\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जायेगी।

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13748511एन अब जेसी-580283ए), 20 अगस्त 2006\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जायेगी।

हवलदार बृज लाल (सं. 13747692एक्स अब जेसी-580285एल), 01 अगस्त 2006

हवलदार रविन्द्र सिंह (सं. 13749114एफ अब जेसी-580286एन), 01 अगस्त 2006

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13747771एम अब जेसी-580287डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006

हवलदार कमल सिंह (सं. 13747968एच अब जेसी-580288वाई), 01 अगस्त 2006

हवलदार अनूप सिंह (सं. 13748694पी अब जेसी-580289एफ), 01 अगस्त 2006

हवलदार मुस्ताक अहमद (सं. 13748711के अब जेसी-580290डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006

हवलदार राम दास, एस एम (सं. 13748757एम अब जेसी-580291वाई), 01 अगस्त 2006

हवलदार उधम सिंह (सं. 13748514एफ अब जेसी-580292एफ), 10 अगस्त 2006\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी।

हवलदार कमल चन्द (सं. 13751136वाई अब जेसी-580293के), 01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार जी. डी. लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक बसन्त सिंह कारकी (सं. 13748765एल अब जेसी-580284एच), 01 अगस्त 2006

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पानमण्ड सोपान मधु (सं. 2783977एफ अब जेसी-459645एन), 04 अगस्त 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार गायकवाड तुकाराम तानाजी (सं. 2784028एफ अब जेसी-459646डब्ल्यू), 03 जुलाई 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जून 2006 से दी जाएगी)

हवलदार इंगले संजय बंधु (सं. 2785764एम अब जेसी-459647वाई), 03 जुलाई 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 2006 से दी जाती है)

हवलदार कदम विजय जगन्नाथ (सं. 2784233एच अब जेसी-459648एफ), 21 जुलाई 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जून 2006 से दी जाएगी)

हवलदार कोटा हरिनाथ रेड्डी (सं. 2783981के अब जेसी-459649के), 04 अगस्त 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जुलाई 2006 से दी जाएगी)

हवलदार गुंजाल दत्त कारभारि (सं. 2782227डब्ल्यू अब जेसी-459650वाई), 19 जुलाई 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2006 से दी जाएगी)

दिवाकर  
अवर सचिव

संख्या 581, दिनांक 27 अक्टूबर 2006

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

गार्ड्स ब्रिगेड

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कासिद मोहन आनन्द राव (जेसी-402095एक्स), 16 नवम्बर 2005\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

सूबेदार अमरजीत सिंह (जेसी-402211पी), 13 फरवरी 2006\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

सूबेदार अनिरुद्ध दुबे (जेसी-402503एक्स), 18 जनवरी 2006\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार शेष नाथ सिंह (जेसी-402594एम), 18 जनवरी 2006\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार/क्लर्क प्रधुमन सिंह पठानिया (जेसी-402531के), 04 मार्च 2006\*

\*(सूबेदार मेजर/क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रनवीर सिंह (जेसी-402996के), 04 फरवरी 2006\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार धरमवीर सिंह (जेसी-403419के), 19 दिसम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अगस्त 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-402997एम), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-403226के), 01 अक्टूबर 2005

नायब सूबेदार सत्य नन्द शर्मा (जेसी-403301एच), 03 जनवरी 2006\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार हरेन गोर्गई (जेसी-402987एच), 20 अक्टूबर 2005\*

नायब सूबेदार ओम दत्त (जेसी-403345ए), 11 जनवरी 2006\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार धन्ना राम (जेसी-403369के), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार रजन सिंह बलवाड़ा (जेसी-403372के), 31 दिसम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र (जेसी-403380एच), 29 दिसम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम चन्द्र (जेसी-402998पी), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार राम पाल सिंह भदौरिया (जेसी-403080एफ), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार करन पाल सिंह (जेसी-403081के), 03 जनवरी 2006\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बद्री प्रसाद (जेसी-403098एक्स), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार राम औतार (जेसी-403110एन), 20 दिसम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार गुलाब चन्द सिंह यादव (जेसी-403199एल), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार राम जनम शर्मा (जेसी-403200पी), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार रनजीत सिंह (जेसी-403253एन), 24 दिसम्बर 2005

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-403255वाई), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार रुद्र पाल सिंह (जेसी-403275एम), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार कुँवर सिंह गुर्गोई (जेसी-403296एच), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार ज्ञान सिंह (जेसी-403299डब्ल्यू), 10 दिसम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार भरत लाल (जेसी-403361के), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार श्याम लाल (जेसी-403373एम), 11 दिसम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार दिगम्बर सिंह (जेसी-403381एल), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार प्रदीप चन्द्र गोगई (जेसी-403309पी), 24 जनवरी 2006\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार श्याम सिंह (जेसी-403374पी), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-403382एन), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार कालू राम (जेसी-403393ए), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार चेना राम (जेसी-403403वाई), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-403441पी), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार मोहेन्द्र सिंह (जेसी-403445एल), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-403446एन), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार महादेव (जेसी-403494एन), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-403495डब्ल्यू), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार विश्वा मित्र (जेसी-403385एक्स), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार बाबू लाल यादव (जेसी-403394एच), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार नवल सिंह (जेसी-403511ए), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार गोपी राम गोंदारा (जेसी-403515वाई), 01 फरवरी 2006

क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार जगदीश चन्द्र रे (सं. 1074229के अब जेसी-241676एफ), 04 अप्रैल 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 दिसम्बर 2005 से दी जाएगी)

दफादार फूल सिंह (सं. 1071839एल अब जेसी-241681एम), 23 मार्च 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

दफादार पी बी बी मावजी (सं. 1070972एफ अब जेसी-241723एन), 09 मई 2006\*

दफादार टिकके महादेव तुकाराम (सं. 1077878ए अब जेसी-241724डब्ल्यू), 17 मई 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

दफादार हिम्मत राव विशनू माने (सं. 1080238एफ अब जेसी-241725वाई), 17 मई 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाएगी)

दफादार राजेन्द्र सिंह (सं. 1074091ए अब जेसी-241728एम), 25 मई 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

दफादार नबाब अली (सं. 1084620पी अब जेसी-241729पी), 17 मई 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

दफादार डी कुमार (सं. 1071432पी अब जेसी-241731एम), 16 मई 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

दफादार शकूर खान मेहर (सं. 1076564एम अब जेसी-241732पी), 06 मई 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)

दफादार प्रदीप कुमार दास (सं. 1070569पी अब जेसी-241734ए), 05 मई 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अप्रैल 2006 से दी जाएगी)



दफादार भाना राम (सं. 1076096एक्स अब जेसी-241736एल),  
09 मई 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

दफादार गुरमुख सिंह (सं. 1080542एल अब जेसी-241737एन),  
04 मई 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

दफादार रविन्द्रन ई वी (सं. 1071929एम अब जेसी-241744के),  
30 मई 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

दफादार विलुचामी सी (सं. 1071576एक्स अब जेसी-241745एम),  
30 मई 2006\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाएगी)

दफादार जे राम सिंह (सं. 1070947एच अब जेसी-241750एक्स),  
01 जून 2006

दफादार बजरंग सिंह (सं. 1071091पी अब जेसी-241751ए),  
01 जून 2006

दफादार जसबीर सिंह (सं. 1075684वाई अब जेसी-241754एन),  
01 जून 2006

#### मैकनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार ओम वीर (सं. 14909933एच अब जेसी-420543एफ),  
16 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 04 जून 2006 से दी जाती है)

हवलदार रूकम सिंह (सं. 14906074एक्स अब जेसी-420544के),  
05 अगस्त 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

हवलदार सुरेन्द्र कुमार लक्ष्मण राव खारात (सं. 14905531एन अब  
जेसी-420555एम), 10 अगस्त 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

हवलदार स्वर्ण सिंह (सं. 14911531के अब जेसी-420546पी),  
10 अगस्त 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 14910711ए अब जेसी-420547एक्स),  
05 अगस्त 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 02 जुलाई 2006 से दी जाती है)

हवलदार राज किशोर प्रसाद चौरसिया (सं. 14904378डब्ल्यू अब  
जेसी-420548ए), 07 अगस्त 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

हवलदार थाथा राम समक्या (सं. 14907098डब्ल्यू अब  
जेसी-420549एच), 10 अगस्त 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

हवलदार अश्वनी कुमार (सं. 14909172एच अब  
जेसी-420550एक्स), 01 अगस्त 2006

हवलदार बचन लाल (सं. 14909285एल अब जेसी-420551ए),  
03 अगस्त 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

हवलदार रमेश (सं. 14906818एक्स अब जेसी-420552एच),  
26 अगस्त 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं. 14906445पी अब जेसी-420553एल),  
01 अगस्त 2006

हवलदार दयानेश्वर पाटिल (सं. 14910779एफ अब जेसी-  
420554एन), 05 अगस्त 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

हवलदार बलवंत सिंह (सं. 14912317एन अब जेसी-420555डब्ल्यू),  
01 अगस्त 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

हवलदार चंदन सिंह (सं. 14907864वाई अब जेसी-420556वाई),  
01 अगस्त 2006

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 14908094के अब जेसी-420557एफ),  
01 अगस्त 2006

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पी शनमुघम (सं. 14909090ए अब जेसी-420522एल),  
24 मई 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 20 फरवरी 2006 से दी जाती है)

हवलदार तुका राम कनबरकर (सं. 14907249एफ अब जेसी-420523एन), 05 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मार्च 2006 से दी जाती है)

• हवलदार राज कुमार (सं. 14906415एक्स अब जेसी-420524डब्ल्यू), 05 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार गुरपाल सिंह (सं. 14913504वाई अब जेसी-420525वाई), 11 जुलाई 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार सुमेर सिंह (सं. 14908182ए अब जेसी-420526एफ), 05 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मार्च 2006 से दी जाती है)

हवलदार राजेन्द्र कुमार (सं. 14905286डब्ल्यू अब जेसी-420527के), 05 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

हवलदार हरवंश लाल (सं. 14906380एम अब जेसी-420528एम), 14 मई 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

हवलदार शोभा राम (सं. 14905354वाई अब जेसी-420529पी), 20 मई 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार चेन्नापन ए (सं. 14909110एच अब जेसी-420530के), 08 मई 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार कोणाला योसेपु (सं. 14907929एफ अब जेसी-420531एम), 01 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 मई 2006 से दी जाती है)

हवलदार शंकर सी एच चंदा (सं. 14907051एच अब जेसी-420532पी), 12 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

हवलदार गोवर्धन सिंह मंजू (सं. 14909201एम अब जेसी-420533एक्स), 01 जून 2006

हवलदार हरवंश लाल (सं. 14906379एक्स अब जेसी-420534ए), 16 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

हवलदार विजय सिंह (सं. 14904923पी अब जेसी-420535एच), 07 जुलाई 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

हवलदार सुरिन्द्र कुमार (सं. 14910174ए अब जेसी-420536एल), 05 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

हवलदार गिरधारी लाल (सं. 14909183पी अब जेसी-420537एन), 07 जून 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

हवलदार चन्द्रभान मिश्रा (सं. 14909650एफ अब जेसी-420538डब्ल्यू), 01 जुलाई 2006

हवलदार अनिल कुमार (सं. 14906588पी अब जेसी-420539वाई), 01 जुलाई 2006

हवलदार भक्त लाल वी के (सं. 14909309के अब जेसी-420540एन), 06 जुलाई 2006\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

जोश थोमस  
अवर सचिव

नं. 582, दिनांक 26 अक्टूबर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं।

नियमित सेना

कोर ऑफ इन्जीनियर

बंगाल इन्जीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार सुरेन्द्र मोहन सिंह (सं. 1463572ए अब जेसी-329883डब्ल्यू), 01 जून 2002@

हवलदार किशन चंद (सं. 1463964एन अब जेसी-329884वाई), 10 दिसम्बर 2005#

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 1470166एच अब जेसी-329885एफ),  
22 मई 2006\$

हवलदार जय कृष्णा (सं. 1470607एन अब जेसी-329886के),  
22 मई 2006%

हवलदार मोहन सिंह बंगा (सं. 1472659एच अब जेसी-329887एम),  
19 जून 2006%

हवलदार विनोद कुमार सिंह (सं. 1472660एक्स अब जेसी-329888पी),  
01 जून 2006\*

हवलदार कैलाश चन्द्र (सं. 1473094पी अब जेसी-329889एक्स),  
01 जून 2006\*

हवलदार सुखमन्दर सिंह (सं. 1473575एफ अब जेसी-329890एम),  
01 जून 2006\*

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 1474660डब्ल्यू अब जेसी-329891पी),  
01 जून 2006\*

हवलदार कुलबीर सिंह (सं. 1474778एक्स अब जेसी-329892एक्स),  
01 जून 2006\*

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 1474976एच अब जेसी-329893ए),  
01 जून 2006\*

हवलदार रनधीर सिंह मंगत (सं. 1475032एन अब जेसी-329894एच), 01 जून 2006\*

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 1475125एच अब जेसी-329895एल),  
01 जून 2006\*

हवलदार सतनाम सिंह (सं. 1475193डब्ल्यू अब जेसी-329896एन),  
03 जून 2006\*

हवलदार चन्द्र भान सिंह (सं. 1475203पी अब जेसी-329897डब्ल्यू),  
01 जून 2006\*

हवलदार दुजेश्वर नाथ पाण्डेय (सं. 1475337डब्ल्यू अब जेसी-329898वाई), 01 जून 2006\*

हवलदार 'सत्य नारायण यादव (सं. 1475446ए अब जेसी-329899एफ), 01 जून 2006\*

हवलदार नीलकान्ता साकिया (सं. 1475519एफ अब जेसी-329900एल), 01 जून 2006\*

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 1467954एफ अब जेसी-329901एन),  
01 जून 2006\*

हवलदार अरविन्द कुमार सिंह (सं. 1467738एन अब जेसी-329902डब्ल्यू), 01 जून 2006\*

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 1471621एम अब जेसी-329903वाई),  
01 जून 2006\*

हवलदार राजेश ठाकुर (सं. 1481771डब्ल्यू अब जेसी-329904एफ),  
01 जून 2006\*

हवलदार सुरेन्द्र नाथ तिवारी (सं. 1465411डब्ल्यू अब जेसी-329905के), 01 जून 2006\*

हवलदार राम सरूप (सं. 1472884एक्स अब जेसी-329906एम),  
03 जून 2006\*

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार राम निवास तिवारी (सं. 1472335एक्स अब जेसी-329907पी),  
30 जून 2006\*

हवलदार सुरेन्द्र सिंह बिष्ट (सं. 1472348पी अब जेसी-329908एक्स),  
01 जून 2006\*

हवलदार विनय कुमार पाठक (सं. 1472352एक्स अब जेसी-329909ए), 05 जून 2006\*

हवलदार अरुण कुमार गुरंग (सं. 1472360डब्ल्यू अब जेसी-329910पी), 01 जून 2006\*

हवलदार बिरेन्द्र कुमार शर्मा (सं. 1472365पी अब जेसी-329911एक्स), 01 जून 2006\*

हवलदार धर्मवीर सिंह (सं. 1472364एम अब जेसी-329912ए),  
01 जून 2006\*

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार चन्द्र प्रकाश (सं. 1483977एम अब जेसी-329913एच),  
23 जून 2006\*

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव के साथ ज्येष्ठता  
01 जून 2002).

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव के साथ ज्येष्ठता  
01 दिसम्बर 2005).

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव के साथ ज्येष्ठता  
24 फरवरी 2006).

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव के साथ ज्येष्ठता  
01 मई 2006).

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव के साथ ज्येष्ठता  
01 जून 2006).

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार (जी डी) मोहम्मद सलीम (सं. 1567365ए अब जेसी-350289एच), 14 जून 2006

हवलदार (जी डी) भरत सिंह (सं. 1567832एम अब जेसी-350290एक्स), 01 मई 2006

हवलदार (जी डी) सुखवंत सिंह (सं. 1568952एक्स अब जेसी-350291ए), 23 मई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार (जी डी) मोरे सुरेश बाबुराव (सं. 1569022एच अब जेसी-350295डब्ल्यू), 01 जून 2006

हवलदार (जी डी) हिरा सिंह (सं. 1569081पी अब जेसी-350296वाई), 06 जून 2006

हवलदार (जी डी) हरीश सिंह धपोला (सं. 1569454एक्स अब जेसी-350297एफ), 03 जून 2006

हवलदार (जी डी) यादव संभाजी काशीनाथ (सं. 1570243एफ अब जेसी-350298के), 03 जून 2006

हवलदार (जी डी) जगदीश सिंह (सं. 1570602के अब जेसी-350299एम), 01 जून 2006

हवलदार (जी डी) अबदुल वाहीद (सं. 1570898एन अब जेसी-350300डब्ल्यू), 17 जून 2006

हवलदार (जी डी) जीत सिंह (सं. 1572117एन अब जेसी-350301वाई), 08 जून 2006

हवलदार (जी डी) कुंदन सिंह कोरंगा (सं. 1572728एच अब जेसी-350302एफ), 01 जून 2006

हवलदार (जी डी) साबुदीन खान (सं. 1555266एल अब जेसी-350303के), 01 जून 2006

हवलदार (जी डी) माकंडे सिंह (सं. 1559296ए अब जेसी-350304एम), 03 जून 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार (जी डी) अमर नाथ (सं. 1567201के अब जेसी-350259एल), 03 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार (जी डी) भिउनगडे लक्ष्मण मारुती (सं. 1568534एच अब जेसी-350261एच), 04 मई 2006

हवलदार (जी डी) माने अशोक मानसिंह (सं. 1571178वाई अब जेसी-350262एल), 03 फरवरी 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार (जी डी) कासार अंकुश थोंडीबा (सं. 1558218डब्ल्यू अब जेसी-350263एन), 10 अप्रैल 2006

हवलदार (जी डी) हंसा सिंह (सं. 1559280पी अब जेसी-350264डब्ल्यू), 13 अप्रैल 2006

हवलदार (जी डी) कोलेकर अशोक रामचंद्र (सं. 1559299एन अब जेसी-350265वाई), 18 अप्रैल 2006

हवलदार (जी डी) विराम सिंह (सं. 1559675डब्ल्यू अब जेसी-350266एफ), 19 अप्रैल 2006

हवलदार (जी डी) शेंडे ज्ञानेश्वर नारायण राव (सं. 1568212एच अब जेसी-350267के), 19 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

हवलदार (जी डी) खावरे चंद्रकांत थोंडीबा (सं. 1566910एम अब जेसी-350269पी), 01 मई 2006

हवलदार (जी डी) गरीब दास (सं. 1567041पी अब जेसी-350270के), 01 मई 2006

हवलदार (जी डी) कृष्णा सिंह (सं. 1567440वाई अब जेसी-350271एम), 01 मई 2006

हवलदार (जी डी) मनमोहन सिंह (सं. 1567629डब्ल्यू अब जेसी-350272पी), 01 मई 2006

हवलदार (जी डी) टुके संजय त्रिंबक (सं. 1568087के अब जेसी-350273एक्स), 01 मई 2006

हवलदार (जी डी) मनजीत सिंह (सं. 1568351एम अब जेसी-350274ए), 03 मई 2006

हवलदार (जी डी) कृपाल सिंह (सं. 1568398एक्स अब जेसी-350275एच), 03 मई 2006

हवलदार (जी डी) हरविंदर सिंह (सं. 1568410एन अब जेसी-350276एल), 01 मई 2006

हवलदार (जी डी) अमरिक सिंह पवार (सं. 1568439डब्ल्यू अब जेसी-350277एन), 01 मई 2006

हवलदार (जी डी) मेवा सिंह (सं. 1568546एक्स अब जेसी-350278डब्ल्यू), 17 मई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी)

हवलदार (जी डी) राम सेवक सुमन (सं. 1570423के अब जेसी-350281डब्ल्यू), 01 जून 2006

हवलदार (जी डी) दया शंकर परवत (सं. 1572571एन अब जेसी-350282वाई), 01 जून 2006

हवलदार (जी डी) फडतरे विजय वामन (सं. 1577053एक्स अब जेसी-350283एफ), 02 जून 2006

हवलदार (जी डी) मंगेश कदम (सं. 1584873एम अब जेसी-350284के), 01 जून 2006

हवलदार (जी डी) बोध सिंह (सं. 1558502एम अब जेसी-350285एम), 01 जून 2006

हवलदार (जी डी) जाधव मारुती शिवराम (सं. 1566954के अब जेसी-350286पी), 01 जून 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

## नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जी डी) केशवा कुमार (सं. 1572497एक्स अब जेसी-350260ए), 27 अप्रैल 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जी डी) प्रताप सिंह (सं. 1575204एम अब जेसी-350279वाई), 01 जून 2006

हवलदार (क्लर्क जी डी) लक्ष्मी शंकर (सं. 1575214एम अब जेसी-350280एन), 01 जून 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

## नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार (एस के टी) देवकी नंदन (सं. 1586442डब्ल्यू अब जेसी-350268एम), 19 मई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जायेगी)

## नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जी डी) जय प्रकाश (सं. 1572843एच अब जेसी-350288ए), 10 जुलाई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जी डी) अशोक कुमार मिश्रा (सं. 1575153के अब जेसी-350292एच), 01 जून 2006

हवलदार (क्लर्क जी डी) भगवान दास (सं. 1575193एल अब जेसी-350293एल), 15 जून 2006

हवलदार (क्लर्क जी डी) विरेंद्र सिंह (सं. 1575215वाई अब जेसी-350294एन), 06 जून 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जी डी) राजन सी (सं. 1575226एल अब जेसी-350305पी), 01 जुलाई 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जायेगी)

## मद्रास इंजीनियर ग्रुप

## नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) एम पांडिया राजन (सं. 1375731के अब जेसी-308495एल), 01 मई 2006@

हवलदार (जीडी) आर प्रकाश (सं. 1376432एक्स अब जेसी-308496एन), 15 मई 2006@

हवलदार (जीडी) टी मंथिरा पांडी (सं. 1376082डब्ल्यू अब जेसी-308509ए), 01 जून 2006#

हवलदार (जीडी) वाई श्रीनिवास (सं. 1381231एच अब जेसी-308510पी), 12 जून 2006#

हवलदार (जीडी) राधा कृष्णन पी (सं. 1384165डब्ल्यू अब जेसी-308511एक्स), 01 जून 2006#

हवलदार (जीडी) एस मुनिस्वामी बाबु (सं. 1375337वाई अब जेसी-308512ए), 02 जून 2006#

हवलदार (जीडी) पाच्चप्पन वी (सं. 1382818एन अब जेसी-308513एच), 02 जून 2006#

हवलदार (जीडी) के आबुबकर शरीफ (सं. 1380729डब्ल्यू अब जेसी-308514एल), 01 जून 2006#

हवलदार (जीडी) ससिधरन पी पी (सं. 1382314ए अब जेसी-308515एन), 02 जून 2006#

हवलदार (जीडी) पी वीरभद्रुडु (सं. 1375614वाई अब जेसी-308527एच), 01 जुलाई 2006\$

हवलदार (जीडी) वर्गीस सी डी (सं. 1381448एम अब जेसी-308528एल), 03 जुलाई 2006\$

हवलदार (जीडी) बी येशाइया (सं. 1378956एक्स अब जेसी-308530एच), 01 जुलाई 2006\$

हवलदार (जीडी) मानिकातन पी (सं. 1378247एच अब जेसी-308531एल), 01 जुलाई 2006\$

हवलदार (जीडी) पी वेंकटेशन (सं. 1376139ए अब जेसी-308532एन), 01 जुलाई 2006\$

हवलदार (जीडी) के सिगामानि (सं. 1377199एफ अब जेसी-308533डब्ल्यू), 03 जुलाई 2006\$

हवलदार (जीडी) आर केसवन (सं. 1377372ए अब जेसी-308534वाई), 03 जुलाई 2006\$

हवलदार (जीडी) ए के रजेंद्रन (सं. 1378044वाई अब जेसी-308535एफ), 01 जुलाई 2006\$

हवलदार (जीडी) रवींद्रन के जी (सं. 1378475एल अब जेसी-308537पी), 01 जुलाई 2006\$

हवलदार (जीडी) के हरि कुमार (सं. 1378573एल अब जेसी-308538पी), 03 जुलाई 2006\$

हवलदार (जीडी) एल परमसिवन (सं. 1378587एल अब जेसी-308539एक्स), 01 जुलाई 2006\$

हवलदार (जीडी) मोहन कुमार एस (सं. 1378599ए अब जेसी-308540एम), 01 जुलाई 2006\$

हवलदार (जीडी) जी सुबन साहेब (सं. 1378614एफ अब जेसी-308541पी), 10 जुलाई 2006\$

हवलदार (जीडी) रथीश कुमार दी बी (सं. 15316214ए अब जेसी-308542एक्स), 28 जुलाई 2006%

हवलदार (जीडी) मनोज आगास्टिन (सं. 15318722ए अब जेसी-308543ए), 03 अगस्त 2006%

हवलदार (जीडी) आन्नाइया एन (सं. 1378667एच अब जेसी-308551वाई), 01 अगस्त 2006&

हवलदार (जीडी) राजेंदिरन जी (सं. 1378701एक्स अब जेसी-308552एफ), 01 अगस्त 2006&

हवलदार (जीडी) मंजुनाथा आई (सं. 1378887एम अब जेसी-308553के), 01 अगस्त 2006&

हवलदार (जीडी) के कुमार (सं. 1379179एम अब जेसी-308555पी), 01 अगस्त 2006&

हवलदार (जीडी) एम कृष्णन (सं. 1379253एच अब जेसी-308556एक्स), 10 अगस्त 2006&

हवलदार (जीडी) विजया कुमार टी (सं. 1379638ए अब जेसी-308557ए), 01 अगस्त 2006&

हवलदार (जीडी) प्रसांथन डी (सं. 1379882ए अब जेसी-308558एच), 01 अगस्त 2006&

हवलदार (जीडी) सुरेश पी सी (सं. 1380045ए अब जेसी-308559एल), 01 अगस्त 2006&

हवलदार (जीडी) एम मुरुगेसन (सं. 1380097डब्ल्यू अब जेसी-308561एच), 01 अगस्त 2006&

हवलदार (जीडी) राजीवन चूरि (सं. 15313634ए अब जेसी-308563एन), 01 अगस्त 2006&

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी।)

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जायेगी।)

# (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी।)

\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जायेगी।)

& (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (लिपिक जीडी) के रैंक में

हवलदार लिपिक (जीडी) सुभाष चंद्रा (सं. 15306295एच अब जेसी-308316ए), 01 सितम्बर 2005\*

हवलदार लिपिक (जीडी) सनातन मंडल (सं. 15306303डब्ल्यू अब जेसी-308317एच), 01 सितम्बर 2005\*

हवलदार लिपिक (जीडी) अजय कुमार पी वी (सं. 15306307एम अब जेसी-308333ए), 13 अक्टूबर 2005\*\*

हवलदार लिपिक (जीडी) रमेशन नायर के (सं. 15306347एन अब जेसी-308334एच), 24 अक्टूबर 2005\*\*

हवलदार लिपिक (जीडी) आनंद कुमार एम आर (सं. 15306352वाई अब जेसी-308335एल), 14 अक्टूबर 2005\*\*

हवलदार लिपिक (जीडी) मोहन कुमार के (सं. 15306354के अब जेसी-308336एन), 17 अक्टूबर 2005\*\*

हवलदार लिपिक (जीडी) मोहन सिंह (सं. 15304404एल अब जेसी-308339एफ), 02 नवम्बर 2005\*\*\*

हवलदार लिपिक (जीडी) वाई आरोन (सं. 1376769ए अब जेसी-308340डब्ल्यू), 20 अक्टूबर 2005\*\*

हवलदार लिपिक (जीडी) वासुदेव (सं. 15304312वाई अब जेसी-308348एच), 02 नवम्बर 2005\*\*\*

हवलदार लिपिक (जीडी) जी उथिरापथि (सं. 1381233एन अब जेसी-308338वाई), 14 नवम्बर 2005\*\*

हवलदार लिपिक (जीडी) सुनिल कुमार सिंह (सं. 15302059के अब जेसी-308341वाई), 12 नवम्बर 2005\*\*

हवलदार लिपिक (जीडी) सुरेश कुमार सिंह (सं. 15304677एन अब जेसी-308350ए), 01 नवम्बर 2005\*\*\*

हवलदार लिपिक (जीडी) शंकर सिंह (सं. 15304775एन अब जेसी-308351एच), 10 नवम्बर 2005\*\*\*

हवलदार लिपिक (जीडी) राज किशोर साहु (सं. 15304334एक्स अब जेसी-308349एल), 03 अगस्त 2005\*\*

हवलदार लिपिक (जीडी) एम राजा मूर्थी (सं. 1380750वाई अब जेसी-308330एम), 17 अगस्त 2005\*\*

हवलदार लिपिक (जीडी) पी वी शिवानारायना (सं. 15303001वाई अब जेसी-308347ए), 01 दिसम्बर 2005\*\*\*

हवलदार लिपिक (जीडी) संजय कुमार (सं. 15306302एन अब जेसी-308337डब्ल्यू), 03 दिसम्बर 2005\*\*

हवलदार लिपिक (जीडी) गुर्दास चंद (सं. 1383619एम अब जेसी-308352एल), 17 नवम्बर 2005\*\*\*

हवलदार लिपिक (जीडी) भीर्गू विश्वकर्मा (सं. 15301200एन अब जेसी-308353एन), 21 नवम्बर 2005\*\*\*

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार एस के टी मंगल सिंह (सं. 1383177वाई अब जेसी-308346एक्स), 26 दिसम्बर 2005\*\*\*

हवलदार एस के टी राधेश्याम (सं. 1379238एन अब जेसी-308332एक्स), 19 नवम्बर 2005\*\*

हवलदार एस के टी राजवीर सिंह (सं. 1377683एन अब जेसी-308329एक्स), 14 दिसम्बर 2005##

हवलदार एस के टी वी सुर्याप्रकाश (सं. 1381823एम अब जेसी-308331पी), 21 नवम्बर 2005\*\*\*

- \* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी।)
- \*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी।)
- \*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी।)
- # (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी।)
- ## (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 सितम्बर 2005 से दी जायेगी।)

रोजी शर्मा  
उप सचिव

#### सेना सचिव शाखा

सं. 583, दिनांक 30 अक्टूबर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

#### नियमित सेना

#### स्थायी कमीशन

#### ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

नाम, आई सी, आर्म एवं ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि  
कर्नल दिपीन्द्र सिंह (आई सी-33235), 73 ए आर, 03 मई 2004  
कर्नल ट्यागी जी एस (आई सी-33238), राजपूत, 03 मई 2004  
कर्नल द्विल्लन आर एस (आई सी-33239), ए ओ सी, 11 मई 2004

कर्नल हुन्डल बी पी एस (आई सी-33241), ए ओ सी, 20 जून 2004

कर्नल श्यामल वाई एस (आई सी-33245), महार, 20 जून 2004

कर्नल डी पी जोशी (आई सी-33260), आर्टी, 20 जून 2004

कर्नल वी के श्रीधरन (आई सी-33264), गार्ड्स, 01 मार्च 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी।

कर्नल आर एस शर्मा (आई सी-33294), डोगरा, 01 जुलाई 2004

कर्नल डी पी एस सन्धू (आई सी-33295), ग्रेन, 01 जुलाई 2004

कर्नल कुमार डी वी (आई सी-33299), ए एस सी, 01 जुलाई 2004

कर्नल एम के मेहता (आई सी-33326), सिग्न, 01 अक्टूबर 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी।

कर्नल शिताम्शू मिश्रा (आई सी-36626), सिग्न, 01 अक्टूबर 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी।

कर्नल ए के श्रीवास्तव (आई सी-36638), सिग्न, 01 फरवरी 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी।

कर्नल वाई सी मोहन (आई सी-30322), ई एम ई, 15 अप्रैल 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी।

कर्नल आर एस राना (आई सी-30325), आर्टी, 28 दिसम्बर 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी।

कर्नल सिंह ए के (आई सी-30326), बिहार, 01 जुलाई 2004

कर्नल इन्द्रपाल सिंह (आई सी-30327), 65 ए आर, 01 जुलाई 2004

कर्नल सिवाच पी एस (आई सी-30330), गार्ड्स, 01 जुलाई 2004

कर्नल हान्डा टी एस (आई सी-30331), पारा, 01 जुलाई 2004

कर्नल पॉल पी, वी एस एम (आई सी-30333), 4 जी आर, 02 जुलाई 2004

कर्नल भट्ट वी के, एस एम, वी एस एम (आई सी-30337), इंजिनियर्स, 16 जुलाई 2004

कर्नल सिंह एस पी (आई सी-30338), जैक लाई, 29 जुलाई 2004

कर्नल गुहा अभिजित (आई सी-30342), आर्टी (जीसी), 01 अगस्त 2004

कर्नल सूद दलजीत (आई सी-30346), 68ए आर, 01 अगस्त 2004

कर्नल आर के शर्मा (आई सी-30348), ई एम ई, 15 अप्रैल 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अगस्त 2004 से दी जाएगी।

कर्नल दलबीर सिंह सुहाग (आई सी-30351), 5 जी आर, 01 अगस्त 2004

कर्नल हसनैन एस ए, बी एस एम (आई सी-30353), गढ़ रिफ, 01 अगस्त 2004

कर्नल जी एस जुल्फा (आई सी-30354), ईएमई, 01 दिसम्बर 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अगस्त 2004 से दी जाएगी

कर्नल मग्गेज सिंह (आई सी-30357), आर्टी, 01 अगस्त 2004

कर्नल नागेन्द्र सिंह (आई सी-30374), राज रिफ, 01 अगस्त 2004

कर्नल गिल पी एस (आई सी-30375), ए एस सी, 01 अगस्त 2004

कर्नल एन एस विद्यार्थी (आई सी-30380), आर्टी, 01 अगस्त 2004

कर्नल द्विल्लन टी एस (आई सी-30383), गार्ड्स, 01 अगस्त 2004

कर्नल पूनीया बी एल, वी एस एम (आई सी-30386), गार्ड्स, 01 अगस्त 2004

कर्नल चाचरा संजीव (आई सी-30389), राजपूत, 03 अगस्त 2004  
 कर्नल दस्ताने आर पी (आई सी-30392), आर्टी (जीसी), 03 अगस्त 2004

कर्नल श्रीवास्तव ए (आई सी-30400), एडी आर्टी, 26 अगस्त 2004  
 कर्नल राकेश शर्मा (आई सी-30403), सिख, 01 सितम्बर 2004  
 कर्नल पुरी विक्रम (आई सी-30406), आर्टी (जीसी), 01 सितम्बर 2004

कर्नल एम एन के कशीद (आई सी-30407), आर्टी, 01 सितम्बर 2004

कर्नल वी के नरूला (आई सी-30408), आर्टी, 01 सितम्बर 2004  
 कर्नल पी पी दूर (आई सी-30416), सिख लाई, 01 सितम्बर 2004  
 कर्नल अनील गुप्ता (आई सी-30418), 4 मद्रास, 01 सितम्बर 2004  
 कर्नल रवि एन वर्मन (आई सी-30435), आर्टी, 01 सितम्बर 2004  
 कर्नल मल्होत्रा के डी (आई सी-30437), ए डी आर्टी, 01 सितम्बर 2004

कर्नल भूथियाल एन सी (आई सी-30442), ए डी आर्टी, 10 सितम्बर 2004

कर्नल चब्बेवाल ए एस, वाई एस एम (आई सी-30462), 67 ए आर, 10 सितम्बर 2004

कर्नल वर्द्धन आर एच (आई सी-30464), आर्टी (जीसी), 11 सितम्बर 2004

कर्नल निर्मोलोक रिटे (आई सी-30465), ईएमई, 15 अप्रैल 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 सितम्बर 2004 से दी जाएगी।

कर्नल उमोंग सैठी (आई सी-30485), सिख, 01 अक्टूबर 2004  
 कर्नल चोपरा संजीव (आई सी-30507), गार्ड्स, 01 अक्टूबर 2004  
 कर्नल कुलदीप सिंह (आई सी-30516), ए डी आर्टी, 01 अक्टूबर 2004  
 कर्नल विजेश्वर एस के (आई सी-30521), आर्टी (जीसी), 01 अक्टूबर 2004

कर्नल कोशल एम एस (आई सी-30547), महार, 01 अक्टूबर 2004  
 कर्नल डी के जार्ज (आई सी-30561), आर्टी, 01 अक्टूबर 2004  
 कर्नल दत्त राजीव (आई सी-30571), इंजी., 01 अक्टूबर 2004  
 कर्नल सिंह जे पी, एस सी (आई सी-30574), ए डी आर्टी, 01 अक्टूबर 2004

कर्नल पट्टर एम आर (आई सी-30581), एम एल आई, 01 अक्टूबर 2004

कर्नल एम एस बूरा (आई सी-30585), आर्टी, 01 अक्टूबर 2004

कर्नल एस एस नायर (आई सी-30612), आई सी, 01 दिसम्बर 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अक्टूबर 2004 से दी जाएगी

कर्नल एस एस परमार (आई सी-30618), आई सी, 01 जनवरी 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अक्टूबर 2004 से दी जाएगी

कर्नल ए डी कौशल (आई सी-31907), इंजी., 01 अक्टूबर 2004

कर्नल सुनीत कुमार (आई सी-31908), सिग्स, 01 फरवरी 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अक्टूबर 2004 से दी जाएगी

कर्नल पी के जागीया (आई सी-31910), ई एम ई, 01 मई 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 अक्टूबर 2004 से दी जाएगी

कर्नल एस एम मेहता, एस एम (आई सी-31917), 05 मई 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 अक्टूबर 2004 से दी जाएगी

कर्नल जे जे एस भल्ला (आई सी-31929), इंजी., 18 अक्टूबर 2004

कर्नल आर के नाम्बियार (आई सी-31946), ई एम ई, 01 मई 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 26 अक्टूबर 2004 से दी जाएगी

कर्नल वी पी श्रीवास्तव (आई सी-31962), सिग्स, 15 अप्रैल 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 नवम्बर 2004 से दी जाएगी

कर्नल जतेन्द्र सिंघाला (आई सी-31968), ई एम ई, 01 मई 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 नवम्बर 2004 से दी जाएगी

कर्नल एच पी एस बेदी (आई सी-33431), जैक रिफ, 01 नवम्बर 2004

कर्नल सिंह वी पी (आई सी-33434), कुमाऊँ, 01 नवम्बर 2004

कर्नल मान सिंह, वी एस एम (आई सी-33435), गार्ड्स, 01 नवम्बर 2004

कर्नल ए के व्यास (आई सी-33439), ए ओ सी, 01 नवम्बर 2004

कर्नल चौधरी डी एल, वी एस एम (आई सी-33450), जाट, 01 नवम्बर 2004

कर्नल ओ पी सोनी (आई सी-33454), आर्टी, 01 नवम्बर 2004

कर्नल पठनिया ओ पी एस (आई सी-33474), मद्रास, 01 नवम्बर 2004

कर्नल जामवाल आर एस, एस एम, वी एस एम (आई सी-33499), राजपूत, 21 नवम्बर 2004

कर्नल कृष्ण सिंह (आई सी-33520), 9 जी आर, 21 नवम्बर 2004



कर्नल मालिक सतीश (आई सी-33533), एम एल आई, 23 नवम्बर 2004

कर्नल सी जे लॉरेन्स, एस एम, वी एस एम (आई सी-33543), पारा, 01 दिसम्बर 2004

कर्नल वी के धाल (आई सी-33554), आर्टी, 01 दिसम्बर 2004

कर्नल आर रनायमुल्ला (आई सी-33557), इन्फै, 01 दिसम्बर 2004

कर्नल एस पी सिंह (आई सी-33708), इन्ट, 01 दिसम्बर 2004

कर्नल ए के बाली (आई सी-36703), सिग्स, 15 अप्रैल 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी।

कर्नल स्वामी एस एन (आई सी-36711), इंजी., 01 दिसम्बर 2004

कर्नल वी आर सोबती (आई सी-36718), सिग्स, 15 अप्रैल 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी।

कर्नल पाठक ए के (आई सी-30681), 81 ए आर, 01 दिसम्बर 2004

कर्नल मानवेन्दर सिंह (आई सी-30682), गाड्स, 15 अप्रैल 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी।

कर्नल रामेश्वर यादव (आई सी-30683), राज रिफ, 01 दिसम्बर 2004

कर्नल एम ए नायक, एस एम (आई सी-30686), इंजी., 01 दिसम्बर 2004

कर्नल संजीव लैंगर (आई सी-30687), 69 ए आर, 01 दिसम्बर 2004

कर्नल औलाख एन एस (आई सी-30688), 90 ए आर, 01 दिसम्बर 2004

कर्नल ए के कालिया (आई सी-30692), ई एम ई, 01 जून 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी।

कर्नल एस वी भीडे, वी एस एम (आई सी-30697), पारा, 01 दिसम्बर 2004

कर्नल ए टी परनायक (आई सी-30701), इंजी, 16 दिसम्बर 2004

कर्नल पी केम्पोस (आई सी-30702), मैक इन्फ, 01 जनवरी 2005

कर्नल अनिल हरनाल (आई सी-30703), इंजी, 01 जनवरी 2005

कर्नल आर बी सिंह (आई सी-30705), इंजी, 01 जनवरी 2005

कर्नल रघबीर यादव (आई सी-30706), कुमाऊँ, 01 जनवरी 2005

कर्नल ए के चौधरी (आई सी-30708), महार, 01 जनवरी 2005

कर्नल ए वी सुब्रमनियन (आई सी-30709), ई एम ई, 01 जुलाई 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जनवरी 2005 से दी जाएगी।

कर्नल समरजीत सिंह (आई सी-30714), राजपूत, 01 जनवरी 2005

कर्नल वी शर्मा (आई सी-30722), इंजी, 01 जनवरी 2005

कर्नल अशोक सिंह, वी एस एम (आई सी-30723), गाड्स, 01 जनवरी 2005

कर्नल एन के पनवर (आई सी-30726), इंजी, 01 जनवरी 2005

कर्नल टी एस गिल, एस एम, वी एस एम (आई सी-30727), पारा, 07 जनवरी 2005

कर्नल कुलजीत सिंह (आई सी-30730), ई एम ई, 01 अगस्त 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जनवरी 2005 से दी जाएगी।

कर्नल एच जे के सेल्वा, वी एस एम (आई सी-30733), 5 जी आर, 16 जनवरी 2005

कर्नल अनिल नंदा (आई सी-30735), आर्टी, 16 जनवरी 2005

कर्नल जतीन्दर सिकन्द (आई सी-30736), इंजी, 16 जनवरी 2005

कर्नल बी बी पाटिल (आई सी-30744), जैक लाई, 16 जनवरी 2005

कर्नल आर एस चान्द (आई सी-30745), मैक इन्फै, 01 फरवरी 2005

कर्नल मित्रा जयदीप (आई सी-30751), ए एस सी, 01 फरवरी 2005

कर्नल जे जी बगोल (आई सी-30752), आर्टी, 01 फरवरी 2005

कर्नल डी सिन्हा (आई सी-30756), पारा, 01 फरवरी 2005

कर्नल राजेश सिंह (आई सी-30763), आर्टी (जी सी), 01 फरवरी 2005

कर्नल सोमाना गौडर वी एस वी एस एम (आई सी-30766), एम एल आई, 01 फरवरी 2005

कर्नल एस लाउमा, वी एस एम (आई सी-30769), डोगरा, 01 फरवरी 2005

कर्नल मल्होत्रा अनिल (आई सी-30783), ए एस सी, 18 मई 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 फरवरी 2005 से दी जाएगी।

कर्नल पी आर संगम, एस एम (आई सी-30788), सिख, 18 मई 2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 फरवरी 2005 से दी जाएगी।

कर्नल एम पी यादव, वी एस एम (आई सी-30811), इंजी, 01 फरवरी 2005

कर्नल आई के कनवर, एस एम, वी एस एम (आई सी-30814), आर्टी, 01 फरवरी 2005

कर्नल जी एन माथुर (आई सी-30816), राजपूत, 03 फरवरी 2005

कर्नल ए के चतुर्वेदी (आई सी-30817), इंजी, 16 फरवरी 2005

कर्नल डी के जामवाल (आई सी-30819), सिख, 01 मार्च 2005

कर्नल पानीग्रही जी पी (आई सी-30832), ए एस सी, 01 मार्च 2005  
कर्नल एन जी जार्ज (आई सी-30840), गढ़ रिफ, 15 अप्रैल 2005 से  
ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मार्च 2005 से दी  
जाएगी।

कर्नल एस के चटर्जी (आई सी-30872), आर्टी, 01 मार्च 2005

कर्नल वाई एस रावत (आई सी-30892), 8 जी आर, 28 अक्टूबर  
2005 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 मार्च 2005  
से दी जाएगी।

कर्नल आर के मोहन (आई सी-30894), आर्टी, 01 मार्च 2005

कर्नल राव के आर, वी एस एम (आई सी-30897), ए ओ सी,  
01 मार्च 2005

कर्नल हरीश अरोड़ा (आई सी-30930), आर्टी, 01 मार्च 2005

कर्नल ए के जयरथ (आई सी-30933), इंजी, 01 मार्च 2005

कर्नल जे सी कुशालाप्पा (आई सी-34253), इंजी, 11 मार्च 2005

कर्नल एस के शर्मा (आई सी-34260), इंजी, 15 अप्रैल 2005

कर्नल सुनील कुमार (आई सी-34277), इ एम ई, 01 अगस्त से  
ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अप्रैल 2005 से दी  
जाएगी।

कर्नल जी डी चड्ढा (आई सी-34292), इंजी, 01 अप्रैल 2005

एन के फूकन

ए.एम.एस./एम.एम.(एम्स)

#### थल सेना विभाग

सं. 584, दिनांक 26 अक्टूबर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित भूतपूर्व  
जूनियर कमीशनड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं।

#### नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार मेजर बिक्रम सिंह (जेसी-181726पी), पहले ब्रिगेड ऑफ  
गार्ड्स, 08 अक्टूबर 2005

सूबेदार मेजर सुरेन्द्र सिंह कन्वासी (जेसी-173887एच), पहले गढ़वाल  
राईफलस, 08 अक्टूबर 2005

सूबेदार मेजर स्वर्ण सिंह (जेसी-182908पी), पहले ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स,  
07 जनवरी 2006

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सूबेदार कन्नापन ए (जेसी-168514एल), पहले मद्रास रेजीमेंट,  
01 मई 2005

सूबेदार राज नारायण सिंह (जेसी-558372वाई), पहले बिहार रेजीमेंट,  
01 मई 2005

सूबेदार राजेन्द्र कुमार थापा (जेसी-218580एम), पहले  
5 जीआर(एफएफ), 08 अक्टूबर 2005

सूबेदार बुधी चन्द सूरज (जेसी-578743एक्स), पहले जैक राईफलस,  
08 अक्टूबर 2005

सूबेदार मन बहादुर पून (जेसी-612125एफ), पहले 4 जीआर,  
09 अक्टूबर 2005

सूबेदार नमन सिंह थापा (जेसी-623021ए), पहले 8 जीआर,  
07 जनवरी 2006

सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-528600एफ), पहले गढ़वाल राईफलस,  
08 जनवरी 2006

सूबेदार मनमोहन सिंह (जेसी-177522एल), पहले पंजाब रेजीमेंट,  
09 जनवरी 2006

सूबेदार सन्तोष सिंह (जेसी-578811ए), पहले जैक राईफलस,  
09 जनवरी 2006

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार शिवानन्द सिंह (जेसी-841815एक्स), पहले भारतीय  
नौ सेना, 05 मार्च 2005

नायब सूबेदार ऐनल हाक (जेसी-747773एक्स), पहले ईएमई,  
16 जुलाई 2005

नायब सूबेदार प्यार चन्द चौहान (जेसी-518854एल), पहले डोगरा  
रेजीमेंट, 07 जनवरी 2006

नायब सूबेदार धनन्तर सिंह (जेसी-592049डब्ल्यू), पहले जैक लाईट  
इन्फैंट्री, 07 जनवरी 2006

नायब सूबेदार अमरेन्द्र कुमार अमर (जेसी-841964एल), पहले  
भारतीय नौ सेना, 07 जनवरी 2006

टी. के. एम. पिल्लै  
अवर सचिव

#### थल सेना विभाग

#### शुद्धि पत्र

सं. 585, दिनांक 25 अक्टूबर 2006--के राजपत्र में प्रकाशित  
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 29, दिनांक 21 जुलाई 2001  
(पेज संख्या-873), 11 दिनांक 16 मार्च 2002 (पेज संख्या-376), 43  
दिनांक 26 अक्टूबर 2002 (पेज संख्या-1588), 16 दिनांक 19 अप्रैल  
2003 (पेज संख्या-508 और 509), 32 दिनांक 09 अगस्त 2003, 44  
दिनांक 01 नवम्बर 2003, 03 दिनांक 15 जनवरी 2005 (पेज संख्या-132),  
और 23 दिनांक 04 जून 2005 (पेज संख्या-813) में शीर्षक नियमित सेना,  
इन्फैंट्री विशेष सूची, द पंजाब रेजिमेन्ट उपशीर्षक नायब सूबेदार क्लर्क रैंक  
के अन्तर्गत शुद्धि की जाती है।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 07 जून 2000 से दी जाती है)

[illegible]

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जाती है)

[illegible]

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जाती है)

के स्थान पर : हवलदार क्लर्क सरवन सिंह मान (2476919डब्ल्यू अब जेसी-429657एन), 01 सितम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

पढ़ा जाए : हवलदार क्लर्क सरवन सिंह मान (2476919डब्ल्यू अब जेसी-429657एन), 01 सितम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जाती है)

के स्थान पर : हवलदार क्लर्क फुलचन्द्रा तिवारी (2476920एल अब जेसी-429658डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

पढ़ा जाए : हवलदार क्लर्क फुलचन्द्रा तिवारी (2476920एल अब जेसी-429658डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जाती है)

के स्थान पर : हवलदार क्लर्क तारा चन्द (2476637एक्स अब जेसी-429659वाई), 01 सितम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

पढ़ा जाए : हवलदार क्लर्क तारा चन्द (2476637एक्स अब जेसी-429659वाई), 01 सितम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जाती है)

दिवाकर

अवर सचिव

-----  
नियमित सेना (विशेष आयोग)

शुद्धिपत्र

सं. 586, दिनांक 27 अक्टूबर 2006---राजपत्र अधिसूचना के अनुच्छेद 1 जो कि 15 दिसम्बर 2001 को प्रकाशित हुआ है, को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है :--

“निम्नलिखित जे. सी. ओज/एन.सी.ओज जो कि विशेष कमीशन अधिकारी कोर्स संख्या 04 से हैं, को सेना में विशेष कमीशन-स्थाई आयोग में उन आर्मस/सर्विसेज़ में जैसे कि उनके नाम के साथ दिए हुए हैं, 13 मई 2000 से लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाता है। एस. सी. ओ-04 कोर्स के अधिकारियों की वरिष्ठता 10 जून 2000 से सेना अनुदेश 8/2001 के अनुसार निश्चित की जाती है।”

एस. के. शर्मा

ले. कर्नल

सहायक सेना सचिव



## MINISTRY OF DEFENCE

## (ARMY BRANCH)

New Delhi, the 25th November 2006

No. 580, dated 25th October 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## INFANTRY

## THE GARHWAL RIFLES

## To be Nb Sub

Hav Bhubneshwar Prasad Kuriyal (4068445K now JC-529998N), 01 Feb 2006

Hav Dhan Singh (4066255Y now JC-529999W), 01 Mar 2006

Hav Pratap Singh (4065419X now JC-530000X), 24 Apr 2006/08 Mar 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh Chandra (4065352K now JC-530001A), 24 Apr 2006/08 Mar 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Jaimal Singh (4064912Y now JC-530002H), 01 Apr 2006

Hav Sobat Singh (4063564W now JC-530003L), 01 Apr 2006

Hav Surender Singh Negi (4065152N now JC-530005W), 01 May 2006

Hav Devendra Singh (4065802W now JC-530006Y), 15 May 2006/01 May 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Shishupal Lal (4066206W now JC-530007F), 21 May 2006/01 May 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Chandra Singh (4066142W now JC-530008K), 17 May 2006/05 May 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 May 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Raghubir Singh (4069814H now JC-530009M), 27 May 2006/06 May 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 06 May 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Vijay Singh (4065670N now JC-530010F), 01 Jun 2006

## To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Farzand Ali (4067073X now JC-530004N), 01 May 2006

## THE DOGRA REGIMENT

## To be Nb Sub

Hav Rajesh Kumar (3988818N now JC-520364W), 01 Feb 2006

Hav Kamaljit (3989848X now JC-520365Y), 01 Mar 2006

Hav Baldev Ram (3983604N now JC-520366F), 01 Jul 2006+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Raju Ram (3983127X now JC-520367K), 05 May 2006

Hav Surinder Kumar (3984274M now JC-520368M), 01 Jun 2006

## JAK RIF

## To be Nb Sub (GD)

Hav Sukh Raj (13748304F now JC-580268L), 21 Feb 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 25 Sep 2005).

Hav Puran Chand (13749273Y now JC-580269N), 11 Jul 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2005).

Hav Subhash Chand (13748316W now JC-580270H), 21 Feb 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2005).

Hav Daljit Singh (13748321F now JC-580271K), 21 Feb 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2005).

Hav Amar Singh (13747933M now JC-580272N), 01 Jun 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 22 May 2006).

Hav Jagat Singh (13747936X now JC-580273W), 01 Jun 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 24 May 2006).

Hav Lal Bahadur Subba (13747395K now JC-580274Y), 16 Jun 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2006).

Hav Ravinder Singh (13747733W now JC-580275F), 01 Jun 2006

Hav Kamlesh Kumar (13748668N now JC-580276K), 20 Jun 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2006).

Hav Ram Lal (13748274P now JC-580277M), 01 Jul 2006

Hav Kuldeep Singh (13748276A now JC-580278P), 15 Jul 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2006).

#### THE PUNJAB REGIMENT

To be Nb Sub Clks

Hav Clk Satya Narayan Singh (No. 2477280Y now JC-429924K), 21 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Balkar Singh (No. 2477319A now JC-429946H), 25 Sep 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Gurnaub Singh (No. 2477274L now JC-429925M), 31 Oct 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Swaran Singh (No. 2477320P now JC-429926P), 31 Oct 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Ashwani Kumar Sharma (No. 2477331F now JC-429927X), 04 Nov 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Ram Singh (No. 2476378A now JC-429928A), 04 Nov 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Jasvir Singh Toor (No. 2477370M now JC-429947L), 17 Dec 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Ram Pal Singh Rana (No. 2477373H now JC-429948L), 21 Dec 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Ravinder Singh Thakur (No. 2477376F now JC-429949N), 27 Dec 2005

(Granted ante dated seniority wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Samson Paul Singh (No 15359574P now JC-429950L), 04 Jan 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Babu Khan (No 2480218X now JC-429974P), 01 Jan 2006

Hav Clk CVSR Janaki Ram (No 2481793L now JC-429951N), 01 Jan 2006

Hav Clk Yenni Chinna Babu (No 2482252W now JC-429992X), 01 Apr 2006

Hav Clk Rajesh Kumar (No 2482643F now JC-429993A), 01 Apr 2006

Hav Clk Nachhatar Singh (No 2477379P now JC-430021Y), 01 May 2006

Hav Clk Ram Karan (No 2483105A now JC-430022F), 01 Jun 2006

Hav Clk Gopal Singh (No 2477123M now JC-430023K), 01 Jun 2006

Hav Clk Kulwant Singh (No 2477390N now JC-430045H), 01 Jul 2006

Hav Clk Virpal Singh Rana (No 2477400M now JC-430046L), 01 Jul 2006

To be Nb Sub

Hav Dharam Chand (No. 2478477F now JC-429994H), 02 Mar 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Sat Pal (No. 2475331H now JC-429995L), 02 Mar 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Pargat Singh (No. 2479207Y now JC-429975X), 18 Mar 2006

(Granted ante dated seniority wef 14 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Bhushan Lal (No. 2475338M now JC-429996N), 21 Apr 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Chanu Ram (No. 2475777X now JC-429976A), 02 Mar 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Virender Singh (No. 2475409H now JC-429997W), 21 Apr 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Kanchan Kumar (No. 2476073A now JC-429977H),  
23 Feb 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Dec 2005 without  
effect on pay and allowances)

Hav Buti Ram (No. 2474814N now JC-429978L),  
12 Mar 2006

(Granted ante dated seniority wef 04 Jan 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Dharm Singh (No. 2478086W now JC-429979N),  
04 Mar 2006

(Granted ante dated seniority wef 20 Jan 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Gurmej Singh (No. 2479216A now JC-429980H),  
09 Mar 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Feb 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Baldev Singh (No. 2479137L now JC-429981L),  
05 Mar 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Feb 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Shiv Kumar (No. 2475094K now JC-429982N),  
12 Mar 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Feb 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Hans Raj (No. 2477093A now JC-429983W),  
13 Mar 2006

(Granted ante dated seniority wef 09 Feb 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Satish Kumar (No. 2474745H now JC-429998Y),  
20 Apr 2006

(Granted ante dated seniority wef 25 Feb 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Raj Kumar (No. 2475217L now JC-429999F),  
10 Apr 2006

(Granted ante dated seniority wef 25 Feb 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Jagir Singh (No. 2474630P now JC-430000H),  
22 Apr 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Surjit Singh (No. 2475644F now JC-429984Y),  
01 Mar 2006

Hav Bakhshis Singh (No. 2478306P now JC-430001L),  
02 Mar 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Iqbal Singh Lakhanpal (No. 2478783W now JC-  
429985F), 04 Mar 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Sucha Singh (No. 2479332H now JC-429986K),  
18 Mar 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Ram Paul Singh (No. 2479956P now JC-430002N),  
28 Apr 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Jagjit Singh (No. 2479567P now JC-430003W),  
28 Apr 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Kulwinder Singh (No. 2478117L now JC-429987M),  
16 Mar 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Mahi Pal (No. 2475422M now JC-430004Y),  
21 Apr 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Rajbir Singh (No. 2476547W now JC-429988P),  
09 Mar 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Sandhokh Singh (No. 2475568A now JC-429989X),  
06 Mar 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Ten Singh (No. 2476488P now JC-429990M),  
01 Mar 2006

Hav Surinder Singh (No. 2476666M now JC-429991P),  
01 Mar 2006

Hav Hardev Singh (No. 2476779P now JC-430005F),  
01 Apr 2006

Hav Suresh Kumar (No. 2481154K now JC-430006K),  
10 Apr 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Om Parkash (No. 2475424X now JC-430007M),  
21 Apr 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Dhup Singh (No. 2475510H now JC-430008P),  
18 Apr 2006

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2006 without  
effect on pay and allowances)

Hav Madan Kumar (No. 2475643Y now JC-430009X),  
01 Apr 2006

#### THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Rajendra Singh Panwar (No. 3180104K now JC-489858W), 11 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Satish Kumar (No. 3188507Y now JC-489859Y),  
1 May 2006

Hav Rohtash Singh (No. 3176869N now JC-489860N),  
29 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 May 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Nawal Kishor Yadav (No. 3175909X now JC-489861W), 01 Jun 2006

Hav Satbir Singh (No. 3180134F now JC-489862Y),  
20 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Mahender Singh (No. 3182992H now JC-489863F),  
1 Jun 2006

Hav Daleep Singh Jat (No. 3178280H now JC-489864K),  
1 Jun 2006

Hav Pratap Singh (No. 3180470N now JC-489865M),  
13 Jun 2006

Hav Arjun Datt (No. 3180354L now JC-489866P), 1 Jul 2006

Hav Parmoad Singh (No. 3183303H now JC-489867X),  
1 Jul 2006

Hav Mohan Lal Gujjar (No. 3176392K now JC-489868A),  
1 Aug 2006

Hav Jagdish Prasad (No. 3177021N now JC-489869H),  
1 Aug 2006

To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Uday Narayan (No. 3178060Y now JC-489870X),  
1 Jul 2006

Hav/Clk Omkar Singh (No. 3178070H now JC-489871A),  
1 Jul 2006

#### THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Mohabat Singh (No. 3383627X now JC-499730Y),  
15 May 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 06 without effect on pay and allowances)

Hav Balbir Singh (No. 3384309A now JC-499731F),  
13 Jul 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Mar 06 without effect on pay and allowances)

Hav Jaswinder Singh (No. 3386356W now JC-499732K),  
27 Jun 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 06 without effect on pay and allowances)

Hav Sewa Singh (No. 3385903N now JC-499733M),  
06 Jul 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 06 without effect on pay and allowances)

#### THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav S Arumugam (No. 2590065F now JC-439667L), 31 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Balasab Bhadargade (No. 2591451A now JC-439682A), 24 Feb 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Korapatti Sivakumar (No. 2596294H now JC-439684L),  
18 Feb 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Mohan P (No. 2587474K now JC-439713P), 28 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Rajesh AL (No. 3391303F now JC-439714X), 6 Jul 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 May 2006 without effect on pay and allowances)

Hav V Ramasubramanian (No. 2593634P now JC-439715A),  
15 Jul 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jun 2006 without effect on pay and allowances)

#### JAK LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Brij Mohan (No. 9089242H now JC-593434M), 16 Jun 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Oct 2005)

Hav Partap Singh (No. 9087004X now JC-593435P), 10 Jun 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Mar 2006)

Hav Moti Lal (No. 9086752Y now JC-593436X), 15 May 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Mar 2006)

Hav Ram Paul (No. 9088524P now JC-593437A), 08 Jun 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Mar 2006)

Hav Abdul Rashid Dar (No. 9084890F now JC-593438H),  
01 Jun 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Apr 2006)

Hav Shaminder Singh (No. 9087355M now JC-593439L),  
01 Jun 2006

To be Nb Subedar (Clk)

Hav (Clk) K Venkata Raman (No. 9089440N now JC-593440A), 09 June 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Apr 2006).

Hav (Clk) Suresh Kumar K (No. 9089441W now JC-593441H), 01 June 2006

Hav (Clk) Uma Kanta Mahapatro (No. 9089442Y now JC-593444W), 22 July 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Jun 2006).

#### THE BIHAR REGIMENT

To be Naib Subedar (GD)

CHM Sunil Kumar Singh (No. 4266553Y now JC-559631H),  
24 March 2006/01 June 2005 (Notional Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 June 2005 without effect on pay and allces).

CHM Joseph Topno (No. 4262982H now JC-559632L),  
18 April 2006/01 July 2005 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 July 2005 without effect on pay and allces).

Hav Ram Prakash Yadav (No. 4262026A now JC-559633N),  
12 May 2006/06 November 2005 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
06 November 2005 without effect on pay and allces).

CHM Reghubar Yadav (No. 4262864P now JC-559634W),  
21 March 2006/01 December 2005 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 December 2005 without effect on pay and allces).

Hav Upendra Bhagat (No. 4262128W now JC-559635Y),  
10 April 2006/01 December 2005 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 December 2005 without effect on pay and allces).

Hav Ravindra Shah (No. 4263097N now JC-559636F),  
09 April 2006/01 December 2005 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 December 2005 without effect on pay and allces).

CHM Subal Gartia (No. 4263876W now JC-559637K),  
27 March 2006/22 December 2005 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
22 December 2005 without effect on pay and allces).

CQHM Pradeep Beck (No. 4269448N now JC-559638M),  
22 March 2006/01 January 2006 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 January 2006 without effect on pay and allces).

CHM Rajeshwar Sharma (No. 4261246X now JC-559639P),  
23 January 2006/01 January 2006 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 January 2006 without effect on pay and allces).

CQMH Ramji Singh (No. 4261261M now JC-559640K),  
23 January 2006/01 January 2006 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 January 2006 without effect on pay and allces).

Hav Nawal Kishore Singh (No. 4260616A now JC-559641M), 07 April 2006/01 January 2006 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 January 2006 without effect on pay and allces).

Hav Turam Hembram (No. 4263901K now JC-559642P),  
12 April 2006/01 January 2006 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01  
January 2006 without effect on pay and allces).

Hav Purnanand Garnaik (No. 4264028K now JC-559643X),  
23 April 2006/01 January 2006 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01  
January 2006 without effect on pay and allces).

Hav Chandra Bhushan Kumar Singh (No. 4265965N now JC-559644A), 08 May 2006/11 January 2006 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 11  
January 2006 without effect on pay and allces).

CHM Govinda Chandra Majhi (No. 4262629W now JC-559645H), 02 May 2006/15 January 2006 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 15  
January 2006 without effect on pay and allces).

CHM Bajit Lal (No. 4262112L now JC-559646L), 10 April  
2006/01 February 2006 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01  
February 2006 without effect on pay and allces).

CQHM Yadav Lal Sharma (No. 4262550N now JC-559647N),  
26 April 2006/26 February 2006 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 26  
February 2006 without effect on pay and allces).

Hav Chunda Hansda (No. 4262220P now JC-559648W),  
07 April 2006/01 March 2006 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01  
March 2006 without effect on pay and allces).

CHM Om Prakash Pandey (No. 4263082L now JC-559649Y), 24 April 2006/12 March 2006 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12  
March 2006 without effect on pay and allces).

CHM Awadesh Kumar Pandey (No. 4266061A now JC-559650N), 26 April 2006/20 March 2006 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 20  
March 2006 without effect on pay and allces).

## To be Nb Sub Clk (GD)

Hav/Clk Shiv Prakash Tiwari (No. 4265097N now JC-559651W), 25 April 2006/27 March 2006 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 27 March 2006 without effect on pay and allces).

Hav/Clk Desh Raj (No. 4265222L now JC-559652Y), 21 April 2006/27 March 2006 (Seniority)\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 27 March 2006 without effect on pay and allces).

## THE RAJPUTANA RIFLES

## To be Nb Sub

Hav Satbir Singh (No. 2881712N now JC-469877A), 13 July 2006/S—01 April 2005

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 April 2005 without effect on pay and allces).

Hav Jugendra Singh (No. 2883590N now JC-469878H), 28 Feb 2006/08 Feb 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Feb 2006 without effect on pay and allces).

Hav Satyvir Singh (No. 2884377A now JC-469879L), 22 April 2006/S 08 Feb 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Feb 2006 without effect on pay and allces).

Hav Satyapal Singh (No. 2883580K now JC-469880A), 05 Mar 2006/10 Feb 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Feb 2006 without effect on pay and allces).

Hav Daya Nand (No. 2883117H now JC-469881H), 25 April 2006/S 14 Feb 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Feb 2006 without effect on pay and allces).

Hav Jaipal Singh (No. 2880086H now JC-469882L), 01 April 2006/S 01 Mar 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allces).

Hav Ompal Singh (No. 2881482L now JC-469883N), 06 April 2006/01 Mar 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allces).

Hav Mahipal Singh Parihar (No. 2882999H now JC-469884W), 22 April 2006/S 21 Mar 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Mar 2006 without effect on pay and allces).

Hav Virender Kumar (No. 2883029M now JC-469885Y), 05 May 2006/S 01 Apr 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 April 2006 without effect on pay and allces).

Hav Ajit Singh (No. 2882518L now JC-469886F), 20 Jun 2006/S 01 Apr 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 April 2006 without effect on pay and allces).

Hav Ratipal Singh (No. 2883153N now JC-469887K), 10 May 2006/S 01 Apr 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 April 2006 without effect on pay and allces).

Hav Mahesh Singh (No. 2889705X now JC-469888M), 22 Apr 2006/S 01 Apr 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 April 2006 without effect on pay and allces).

Hav Shivraj Singh Bhadoria (No. 2880951W now JC-469889P), 18 Jul 2006/S 01 Jun 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allces).

Hav Nain Singh Rajput (No. 2884907K now JC-469890K), 10 Jul 2006/S 01 Jun 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allces).

Hav/Clk Nawal Singh Rathod (No. 2881596W now JC-469891M), 01 Jul 2006

Hav/Clk Shambhu Singh (No. 2881597Y now JC-469892P), 14 Jul 2006/S 01 Jul 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allces).

Hav/Clk Mahipal Singh (No. 2880950M now JC-469893X), 01 Jul 2006

Hav/Clk Rama Shankar Tiwari (No. 2881830F now JC-469894A), 01 Jul 2006

Hav Kasi Singh (No. 2889736Y now JC-469895H), 09 Jul 2006/S 01 Jul 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allces).

Hav Davendra Singh (No. 2880862X now JC-469896L), 09 Jul 2006/S 01 Jul 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allces).

Hav Devi Singh (No. 2881815M now JC-469897N), 13 Jul 2006/S 01 Jul 2006

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allces).

## THE PARACHUTE REGIMENT

## To be Nb Sub

Hav Mahendra Singh Raghav (No. 2986260P now JC-413077P), 27 Jun 2006\*

\*(Gtd ante date seniority without effect on pay and allowances wef 13 Jun 2006).

Hav Suresh Pal (No. 3180016N now JC-413078X), 16 Jun 2006

Hav Khushi Ram (No. 13616883W now JC-413080P), 07 Jul 2006\*

\*(Gtd ante dateseniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2006).

Hav Ramesh Kumar (No. 2784322F now JC-413081X), 01 May 2006

Hav Harpal Singh (No. 2785168A now JC-413082A), 01 May 2006

Hav Chandra Mohan Chattar (No. 13616870Y now JC-413083H), 01 May 2006

Hav Nanda Ballabh (No. 13615890A now JC-413084L), 01 Aug 2006

Hav Surjit Singh (No. 13617009A now JC-413085N), 01 Aug 2006

Hav Yudhbir Singh (No. 13617025A now JC-413086W), 01 Aug 2006

## To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Manjit Singh (No. 13616751H now JC-413079A), 01 Jul 2006

## JAK LI

## To be Substantive Subedar Clerk

Nb Sub (Clk) Rukm Pal Singh Chauhan (JC-593016X), 20 Apr 2006

(Gtd seniority in the rank of Sub Clk 01 Apr 2006)

## THE JAT REGIMENT

## To be Sub Maj

Sub Jai Singh (JC-205125L), 12 Feb 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Dharam Singh (JC-224563H), 23 Feb 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Ram Kumar Singh (JC-205132F), 1 May 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Jai Pal (JC-488076N), 1 Jan 2004

Sub Dharam Singh (JC-488104P), 1 Jan 2004

Sub Gyana Ram Jakhar (JC-488183P), 1 Feb 2004

Sub Hari Singh (JC-218480F), 1 May 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Bhagwana Ram (JC-488089L), 1 Apr 2004

Sub Kan Singh (JC-488321L), 26 May 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Rang Pal Singh Tholia (JC-222679A), 1 May 2004\*

Sub Ram Dev Ram (JC-224411F), 5 Oct 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Lala Ram (JC-488016Y), 1 May 2004

Sub Hawa Singh (JC-488027L), 3 May 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Balram Gujar (JC-222677P), 1 Jun 2004

Sub Ram Swaroop (JC-488061L), 1 Jun 2004

Sub Tejbir Singh (JC-488114Y), 4 Oct 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Balgeet Singh (JC-488164K), 10 Dec 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Diwan Singh (JC-488189W), 1 Aug 2004

Sub Suresh Kumar (JC-488257Y), 1 Aug 2004

Sub Raghuvir Singh (JC-211077M), 25 Sep 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Suraj Bhan (JC-488042A), 4 Oct 2004

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Jai Bhagwan (JC-208364L), 1 Oct 2004

Sub Jugender Singh (JC-488070M), 16 Oct 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Rajender Singh (JC-488259K), 4 Dec 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Juwana Ram (JC-488138H), 16 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Sub Uttam Singh (JC-488318L), 20 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Rohitashow Jat (JC-488216P), 21 Jan 2005

Sub Bhagwana Ram (JC-488596Y), 1 Jun 2005

Sub Om Parkash Dhull (JC-488638A), 1 Jul 2005

Sub Jagbir Singh Dahiya (JC-528322Y), 1 Jul 2005

Sub Hari Singh (JC-488462A), 1 Jul 2005

Sub Pusa Ram (JC-488039A), 1 Aug 2005

Sub Chander Pal Singh (JC-488384N), 1 Aug 2005

Sub Bhura Ram Tandi (JC-488153X), 1 Aug 2005

Sub Karan Singh (JC-488152P), 1 Sep 2005

Sub Karamvir (JC-488065F), 10 Oct 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Sub Jaimal Singh Chahal (JC-488287W), 1 Nov 2005

Sub Harphool Singh (JC-488308F), 7 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

To be Sub Maj Clk

Sub/Clk Inder Singh Jakher (JC-488009H), 21 Apr 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (Clk) wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allowances)

To be Sub Maj (RT)

Sub/RT Ajab Lal Sharma (JC-111751W), 10 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (RT) wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

#### THE MADRAS REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub T Siva Muni Reddy (JC-439182H), 22 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 18 Mar 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Nallathambi M (JC-439200A), 1 Apr 2006

Nb Sub Kokkanti Venkata Ramana Reddy (JC-439370K), 12 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub HA Chinnappa (JC-439098H), 1 May 2006\*

Nb Sub Chako K (JC-439183L), 22 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sureshan P (JC-439272K), 31 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Divakaran K (JC-439234N), 2 Jul 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances)

#### THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Satish Chand (JC-518839W), 15 May 2006+

+(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances)

To be Sub Maj/Clk

Sub Damodar Dutt Sharma (JC-518590P), 2 May 2006+

+(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Girdhari Lal (JC-519640F), 8 Feb 2006+

+(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 18 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Krishan Dev (JC-519689X), 17 Apr 2006+

+(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 17 Nov 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Tulsi Ram (JC-519749F), 15 May 2006+

+(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 26 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Surinder Kumar (JC-519863Y), 24 May 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 16th Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ramesh Chander (JC-519734Y), 15 May 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sohan Singh (JC-519735F), 15th May 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 22nd Apr 2006 without effect on pay and allowances)

To be Sub Maj

Sub Dharm Pall (JC-518968W), 14th July 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1st July 2006 without effect on pay and allowances)

Sub Kabal Singh (JC-518847P), 1st July 2006

To be Sub Maj/Clk

Sub/Clk Kewal Singh Dhiman (JC-518657H), 3rd July 2006

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj/Clk with effect from 1st July 2006 without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Surjan Singh (JC-519828W), 01 Jun 2005



Nb Sub Gian Chand (JC-519534H), 17 Jun 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 20 Dec 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Desraj Bhadwal (JC-519681L), 01 Feb 2006

Nb Sub Samraj Singh (JC-519760A), 01 Mar 2006

Nb Sub Rup Lal (JC-519830N), 10 June 2006+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 30 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sushil Kumar (JC-519761H), 01 June 2006

#### THE MAHAR REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Asu Ram (JC-569022M), 01 Sep 2005

Nb Sub Uttam Tukaram Ranvir (JC-569282X), 01 Sep 2005

Nb Sub Dilip Bisan Tayade (JC-569283A), 01 Sep 2005

Nb Sub Ramadhar Narottam Tembhurkar (JC-569354W), 01 Sep 2005

Nb Sub Naresh Kumar (JC-569350A), 01 Sep 2005

Nb Sub Virender Singh (JC-569377X), 01 Sep 2005

Nb Sub Suresh Singh (JC-569379H), 01 Sep 2005

Nb Sub Krishan Chander (JC-569127W), 05 Nov 2005@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 23 Sep 2005)

Nb Sub Biswanath Ghosh (JC-569089L), 01 Oct 2005

Nb Sub MD Mijanur Hak Mondal (JC-569096F), 01 Oct 2005

Nb Sub Kankal Subash Vishv Nath (JC-569284H), 12 Oct 2005@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2005)

Nb Sub Man Mohan Singh (JC-569402L), 01 Oct 2005

Nb Sub Ram Kunwar (JC-569097K), 01 Nov 2005

Nb Sub Kambale Akash Ramchandra (JC-569198X), 01 Nov 2005

Nb Sub Rajjan Lal (JC-569259K), 01 Nov 2005

Nb Sub Gurdayal Singh (JC-569368W), 01 Nov 2005

Nb Sub Shrikant Pandey (JC-569339F), 01 Nov 2005

Nb Sub Om Prakash (JC-569364A), 01 Nov 2005

Nb Sub MD Borjahan (JC-569151M), 01 Dec 2005

Nb Sub Abnave Ramesh Baban (JC-569191N), 28 Jan 2006@@@

@@@ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2005)

Nb Sub Zale Singh (JC-569210N), 01 Dec 2005

Nb Sub Santap Singh (JC-569225W), 01 Dec 2005

Nb Sub Lal Bahadur Singh (JC-569055X), 29 Dec 2005

#### THE SIKH REGIMENT

To be Subedar Major

Sub Kulwant Singh (JC-498385K), 02 Jan 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

To be Subedar

Nb Sub Tarsem Singh (JC-499102K), 10 Mar 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 15 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Amrik Singh (JC-499086X), 10 May 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 24 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jamit Singh (JC-499244F), 04 Jul 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 21 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Darshan Singh (JC-499303H), 05 Jun 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Bua Singh (JC-499280M), 20 June 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 June 2006 without effect on pay and allowances).

To be Subedar Clerk

Nb Sub/Clk Dharambir Singh (JC-499215M), 22 June 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub/Clk wef 01 June 2006 without effect on pay and allowances).

To be Subedar

Nb Sub Jagtar Singh (JC-499241N), 14 Jul 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Surjit Singh (JC-499302A), 30 May 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Manjit Singh (JC-499182M), 01 July 2006

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 June 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Manjit Singh (JC-499285L), 01 Aug 2006

To be Subedar Clerk

Nb Sub Clk Manjeet Singh (JC-499233P), 01 Aug 2006

#### THE PARACHUTE REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Laxmi Narain (JC-210890H), 01 July 2006

To be Sub

Nb Sub Vinod Kumar (JC-412797K), 01 Apr 2006

Nb Sub Madan Lal (JC-412794W), 01 Apr 2006

Nb Sub Prema Ram Jat (JC-412752K), 23 Apr 2006

Nb Sub Ram Swaroop (JC-412747Y), 23 Apr 2006

Nb Sub Shamsheer Singh (JC-412668K), 01 May 2006

Nb Sub Magha Ram Khileri (JC-412669K), 01 May 2006

Nb Sub Shubh Ram Punia (JC-412756A), 13 June 2006

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) N Innusudan (JC-412595H), 01 June 2006

#### JAK LI

To be Naib Subedar (GD)

Hav Ashok Kumar (No. 9086883K now JC-593445Y),  
02 July 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Mar 2006)

Hav Abdul Majid Bhat (No. 9085921H now JC-593446F),  
14 July 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Apr 2006)

Hav Mohd Akbar Ganai (No. 9086796W now JC-593448M),  
14 July 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 May 2006)

Hav Kuldeep Raj (No. 9087038L now JC-593449P), 15 July  
2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2006)

To be Naib Subedar (Clk)

Hav (Clk) Digamber Singh (No. 3989541M now JC-  
593450K), 03 July 2006

[Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 July 2006]

Hav (Clk) Nur Singh Yadav (No. 9089470L now JC-  
593447K), 16 Aug 2006

[Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Aug 2006]

#### 8 GR

To be Nb Sub (GD)

Hav Yam Bahadur GC (No. 5751272K now JC-623696A),  
18 Jun 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006  
without effect on pay and allowances)

Hav Gun Bahadur Thapa (No. 5751985P now JC-623697H),  
20 Jun 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006  
without effect on pay and allowances)

Hav Bharat Bahadur Rana (No. 5751403K now JC-623698L),  
18 Jun 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June 2006  
without effect on pay and allowances)

Hav Bal Bahadur Roka (No. 5751098H now JC-623699N),  
01 July 2006

Hav Purna Bahadur Gurung (No. 5751117H now JC-  
623700X), 01 Jul 2006

#### 5 GR (FF)

To be Nb Sub (GD)

Hav Top Bahadur Thapa (No. 5449192P now JC-617799H),  
01 July 2006

Hav Gam Bahadur Pun (No. 5450083P now JC-617800M),  
11 July 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2006  
without effect on pay and allowances)

Hav Khem Narayan Shrestha (No. 5449987H now JC-  
617802X), 01 Aug 2006

Hav Tejendra Bahadur Thapa (No. 5450433W now JC-  
617803A), 01 Aug 2006

To be Nb Sub/Clk (GD)

Hav/Clk Vinai Kumar Singh (No. 5449973H now JC-  
617794K), 06 May 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006  
without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Suresh Chandra Godara (No. 5450221L now JC-  
617801P), 01 July 2006

#### 8 GR

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Durga Prasad Gautam (No. 5750798K now JC-  
623688F), 01 July 2006

Hav/Clk Harbans Lal Dogra (No. 5750812L now JC-  
623689K), 01 July 2006

Hav/Clk Satya Pal Yadav (No. 5750931F now JC-623690Y),  
01 Aug 2006

To be Nb Sub (GD)

Hav Ran Bahadur Shrestha (No. 5751236Y now JC-  
623691F), 05 June 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Apr 2006  
without effect on pay and allowances)

Hav Durga Bahadur Rana (No. 5751528F now JC-623692K),  
05 June 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Apr 2006  
without effect on pay and allowances)

Hav Rit Bahadur Pun (No. 5752224W now JC-623693M), 05 June 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Rajendra Bahadur Rana (No. 5751513Y now JC-623694P), 05 June 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Dal Bahadur Pachhai (No. 5751697H now JC-623695X), 05 June 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Lok Man Gurung (No. 5751792P now JC-623683H), 15 Mar 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Raj Bahadur Thapa Magar (No. 5751246H now JC-623685N), 03 Mar 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Krishna Bahadur Gurung (No. 5750616L now JC-623686W), 12 Apr 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Budhi Man Gurung (No. 5751046M now JC-623687Y), 14 June 2006\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June 2006 without effect on pay and allowances)

#### THE MAHAR REGIMENT

To be Naib Subedar Clerk (GD)

Sl. No., Rank, Name, Army No. and JC No. & To be Sub Clk (GD) wef

(a) Hav Clk (GD) Manoj Kumar Patra (No. 4554561K now JC-569597F), 21 May 2005\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

(b) Hav Clk (GD) Bala Subramanian PK (No. 4554778N now JC-569617K), 07 Aug 2005@

@(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

(c) Hav Clk (GD) Avdhesh Kumar (No. 4556073A now JC-569618M), 10 Aug 2005#

%(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

(d) Hav Clk (GD) Desh Raj (No. 4556074H now JC-569619P), 01 Sep 2005

(e) Hav Clk (GD) Kulvinder Singh (No. 3383252K now JC-569620K), 1 Sep 2005

(f) Hav Clk (GD) Naresh Babu (No. 4556071P now JC-569666M), 09 Nov 2005\$

\$(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

(g) Hav Clk (GD) Shiv Nath Singh (No. 4556240L now JC-569667P), 24 Oct 2005%

%(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances)

(h) Hav Clk (GD) Balwant Singh (No. 4553899H now JC-569674L), 01 Dec 2005

(j) Hav Clk (GD) Sukhviri (No. 4556075L now JC-569675N), 02 Jan 2006\*\*

\*\* (Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances)

(k) Hav Clk (GD) Rameshwar Singh (No. 4556292F now JC-569692N), 04 Feb 2006@@

@@(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

(l) Hav Clk (GD) Rajinder Singh (No. 4553591P now JC-569693W), 03 Feb 2006##

##(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

(m) Hav Clk (GD) Sumer Singh (No. 4555094K now JC-569694Y), 01 Feb 2006

(n) Hav Clk (GD) Jalaluddin (No. 4556315X now JC-569695F), 18 Feb 2006\$\$

\$\$ (Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances)

(o) Hav Clk (GD) Shalish Kumar Thakur (No. 4556317H now JC-569754H), 01 Apr 2006

(p) Hav Clk (GD) Hunuman Singh Chauhan (No. 4556318L now JC-569755L), 05 Apr 2006\*\*\*

\*\*\* (Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

(q) Hav Clk (GD) Suryavanshi Suryakant Nagnath (No. 4556368W now JC-569757W), 01 May 2006

(r) Hav Clk (GD) Deva Ram Choudhary (No. 4555769Y now JC-569758Y), 01 May 2006

JAK RIF

To be Nb Sub (GD)

Hav Nand Lal (No. 13748586L now JC-580279X), 05 May 2006\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Dhian Singh (No. 13748500F now JC-580280M), 10 Aug 2006\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Tek Chand (No. 13750922L now JC-580281P), 24 Jul 2006\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Pradeep Tamang (No. 13749054X now JC-580282X), 29 Jul 2006\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar (No. 13748511N now JC-580283A), 20 Aug 2006\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Brij Lal (No. 13747692X now JC-580285L), 01 Aug 2006

Hav Ravinder Singh (No. 13749114F now JC-580286N), 01 Aug 2006

Hav Ashok Kumar (No. 13747771M now JC-580287W), 01 Aug 2006

Hav Kamal Singh (No. 13747968H now JC-580288Y), 01 Aug 2006

Hav Anup Singh (No. 13748694P now JC-580289F), 01 Aug 2006

Hav Mustak Ahmed (No. 13748711W now JC-580290W), 01 Aug 2006

Hav Ram Dass, SM (No. 13748757M now JC-580291Y), 01 Aug 2006

Hav Udham Singh (No. 13748514F now JC-580292F), 10 Aug 2006\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Kamal Chand (No. 13751136Y now JC-580293K), 01 Aug 2006

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav/Clk Basant Singh Karki (No. 13748765L now JC-580284H), 01 Aug 2006

THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Panmand Sopan Mahadu (No. 2783977F now JC-459645N), 04 Aug 2006\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub with effect from 09 May 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Gaikwad Tukaram Tanaji (No. 2784028F now JC-459646W), 03 Jul 2006\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub with effect from 14 Jun 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Ingale Sanjay Bandu (No. 2785764M now JC-459647Y), 03 Jul 2006\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub with effect from 15 Jun 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Kadam Vijay Jagannath (No. 2784233H now JC-459648F), 21 Jul 2006\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub with effect from 19 Jun 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Kotta Harinatha Reddy (No. 2783981K now JC-459649K), 04 Aug 2006\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub with effect from 03 Jul 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Gunjal Dattu Karbhari (No. 2782227W now JC-459650Y), 19 Jul 2006\*

\*(Gtd Seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10 Jul 2006 without effect on pay and allowances)

DIWAKAR, Under Secy.

No. 581, dated 27th October 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

BRIGADE OF THE GUARDS

To be Sub Major

Sub Kashid Mohan Anand Rao (JC-402095X), 16 Nov 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2005).

Sub Amarjeet Singh (JC-402211P), 13 Feb 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2005).

Sub Anirudh Dubey (JC-402503X), 18 Jan 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2006).

Sub Sesh Nath Singh (JC-402594M), 18 Jan 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2006).

To be Sub Major (Clerk)

Sub (Clk) Perduman Singh Pathania (JC-402531K), 04 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (Clk) without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2006).

## To be Sub

Nb Sub Ranvir Singh (JC-402996K), 04 Feb 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 03 Aug 2005).

Nb Sub Dharamveer Singh (JC-403419K), 19 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 23 Aug 2005).

Nb Sub Balbir Singh (JC-402997M), 01 Oct 2005

Nb Sub Rajendra Singh (JC-403226K), 01 Oct 2005

Nb Sub Satya Nand Sharma (JC-403301H), 03 Jan 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2005).

Nb Sub Horen Gogoi (JC-402987H), 20 Oct 2005

Nb Sub Om Datt (JC-403345A), 11 Jan 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2005).

Nb Sub Dhanna Ram (JC-403369K), 01 Nov 2005

Nb Sub Ratan Singh Balwada (JC-403372K), 31 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2005).

Nb Sub Kailash Chander (JC-403380H), 29 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 2005).

Nb Sub Ram Chander (JC-402998P), 01 Dec 2005

Nb Sub Ram Pal Singh Bhadauria (JC-403080F), 01 Dec 2005

Nb Sub Karan Pal Singh (JC-403081K), 03 Jan 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2005).

Nb Sub Badri Prasad (JC-403098X), 01 Dec 2005

Nb Sub Ram Autar (JC-403110N), 20 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2005).

Nb Sub Gulab Chand Singh Yadav (JC-403199L), 01 Dec 2005

Nb Sub Ram Janam Sharma (JC-403200P), 01 Dec 2005

Nb Sub Ranjit Singh (JC-403253N), 24 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2005).

Nb Sub Rajender Prasad (JC-403255Y), 01 Dec 2005

Nb Sub Rudar Pal Singh (JC-403275M), 01 Dec 2005

Nb Sub Kunwar Singh Gusain (JC-403296H), 01 Dec 2005

Nb Sub Gyan Singh (JC-403299W), 10 Dec 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2005).

Nb Sub Bharat Lal (JC-403361K), 01 Dec 2005

Nb Sub Shyam Lal (JC-403373M), 11 Dec 2005

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Dec 2005).

Nb Sub Digambar Singh (JC-403381L), 01 Dec 2005

Nb Sub Prodip Chandra Gogoi (JC-403309P), 24 Jan 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 30 Dec 2005).

Nb Sub Shyam Singh (JC-403374P), 01 Jan 2006

Nb Sub Om Prakash (JC-403382N), 01 Jan 2006

Nb Sub Kallu Ram (JC-403393A), 01 Jan 2006

Nb Sub Chena Ram (JC-403403Y), 01 Jan 2006

Nb Sub Balbir Singh (JC-403441P), 01 Jan 2006

Nb Sub Mohinder Singh (JC-403445L), 01 Jan 2006

Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-403446N), 01 Jan 2006

Nb Sub Mahadev (JC-403494N), 01 Jan 2006

Nb Sub Rajbir Singh (JC-403495W), 01 Jan 2006

Nb Sub Bishwamitra (JC-403385X), 01 Jan 2006

Nb Sub Babu Lal Yadav (JC-403394H), 01 Feb 2006

Nb Sub Nawal Singh (JC-403511A), 01 Feb 2006

Nb Sub Gopi Ram Godara (JC-403515Y), 01 Feb 2006

## (ARMOURED CORPS)

## To be Nb Ris

Dfr Jagdish Chandra Ray (No. 01074229K now JC-241676F), 04 Apr 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 27 Dec 2005 without effect on pay and allowances).

Dfr Phool Singh (No. 01071839L now JC-241681M), 23 Mar 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 16 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr P B B Mavji (No. 01070972F now JC-241723N), 09 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2002 without effect on pay and allowances).

Dfr Tikke Mahadev Tukaram (No. 01077878A now JC-241724W), 17 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Himat Rao Vishnu Mane (No. 01080238F now JC-241725Y), 17 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Rajender Singh (No. 01074091A now JC-241728M),  
25 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Nabab Ali (No. 01084620P now JC-241729P),  
17 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr D Kumar (No. 01071432P now JC-241731M),  
16 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Shakoor Khan Mehar (No. 01076564M now JC-241732P), 06 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 07 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Pradip Kumar Das (No. 01070569P now JC-241734A),  
05 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 14 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Bhana Ram (No. 01076096X now JC-241736L),  
09 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Gurmukh Singh (No. 01080542L now JC-241737N),  
04 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Raveendran EV (No. 01071929M now JC-241744K),  
30 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Veluchami C (No. 01071576X now JC-241745M), 30 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Jay Ram Singh (No. 01070947H now JC-241750X),  
01 Jun 2006

Dfr Bajrang Singh (No. 01071091P now JC-241751A),  
01 Jun 2006

Dfr Jasbir Singh (No. 01075684Y now JC-241754N),  
01 Jun 2006\*

#### THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Naib Subedar

Hav Om Vir (No. 14909933H now JC-420543F), 16 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 04 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Rukum Singh (No. 14906074X now JC-420544K),  
05 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Surendra Kumar Laxman Rao Kharat (No. 14905531N now JC-420545M), 10 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Swarn Singh (No. 14911531K now JC-420546P), 10 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Narendra Singh (No. 14910711A now JC-420547X),  
05 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 02 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Raj Kishore Prasad Chaurasia (No. 14904378W now JC-420548A), 07 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Thothi Ram Samkria (No. 14907098W now JC-420549H), 10 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ashwani Kumar (No. 14909172H now JC-420550X),  
01 Aug 2006

Hav Bachan Lal (No. 14909285L now JC-420551A),  
03 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh (No. 14906818X now JC-420552H), 26 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Joginder Singh (No. 14906445P now JC-420553L),  
01 Aug 2006

Hav Dnyaneshwar Patil (No. 14910779F now JC-420554N), 05 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Balwant Singh (No. 14912317N now JC-420555W),  
05 Aug 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Chandan Singh (No. 14907864Y now JC-420556Y),  
01 Aug 2006\*

Hav Surjeet Singh (No. 14908094K now JC-420557F),  
01 Aug 2006

Hav P Shanmugham (No. 14909090A now JC-420522L),  
24 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
20 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Tuka Ram Kanbarkar (No. 14907249F now JC-  
420523N), 05 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
31 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Raj Kumar (No. 14906415X now JC-420524W),  
05 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
31 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Gural Singh (No. 14913504Y now JC-420525Y),  
11 Jul 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
31 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Sumer Singh (No. 14908182A now JC-420526F), 05  
Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
31 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Rajendra Kumar (No. 14905286W now JC-  
420527K), 05 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
12 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Harbans Lal (No. 14906380M now JC-420528M),  
14 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
13 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Shobha Ram (No. 14905354Y now JC-420529P), 20  
May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Chennappan A (No. 14909110H now JC-420530K),  
08 May 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 May 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Konala Yosepu (No. 14907929F now JC-420531M),  
01 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
04 May 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Sankar Ch Chanda (No. 14907051H now JC-  
420532P), 12 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Goverdhan Singh Manju (No. 14909201M now JC-  
420533X), 01 Jun 2006

Hav Harbans Lal (No. 14906379X now JC-420534A),  
16 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Vijay Singh (No. 14904923P now JC-420535H),  
07 Jul 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Surinder Kumar (No. 14910174A now JC-420536L),  
05 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Girdhari Lal (No. 14909183P now JC-420537N),  
07 Jun 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Chandrabhan Mishra (No. 14909650F now JC-  
420538W), 01 Jul 2006

Hav Anil Kumar (No. 14906588P now JC-420539Y),  
01 Jul 2006

Hav Bhakta Lal VK (No. 14909309K now JC-420540N),  
06 Jul 2006\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

JOSE THOMAS  
Under Secy.

No. 582, dated 26 Oct 2006.—The President is pleased to  
make the following promotions:—

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

BENGAL ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Hav Surender Mohan Singh (No. 1463572A now JC-  
329883W), 01 Jun 2002@

Hav Kishan Chand (No. 1463964N now JC-329884Y),  
10 Dec 2005#

Hav Surender Singh (No. 1470166H now JC-329885F),  
22 May 2006\$

Hav Jai Krishna (No. 1470607N now JC-329886K),  
22 May 2006%

Hav Mohan Singh Banga (No. 1472659H now JC-329887M), 19 Jun 2006%

Hav Vinod Kumar Singh (No. 1472660X now JC-329888P), 01 Jun 2006\*

Hav Kailash Chandra (No. 1473094P now JC-329889X),  
01 Jun 2006\*

Hav Sukhmander Singh (No. 1473575F now JC-329890M), 01 Jun 2006\*

Hav Surjit Singh (No. 1474660W now JC-329891P),  
01 Jun 2006\*

Hav Kulbir Singh (No. 1474778X now JC-329892X),  
01 Jun 2006\*

Hav Devinder Singh (No. 1474976H now JC-329893A),  
01 Jun 2006\*

Hav Randhir Singh Mangat (No. 1475032N now JC-329894H), 01 Jun 2006\*

Hav Narendra Singh (No. 1475125H now JC-329895L),  
01 Jun 2006\*

Hav Satnam Singh (No. 1475193W now JC-329896N),  
03 Jun 2006\*

Hav Chandra Bhan Singh (No. 1475203P now JC-329897W), 01 Jun 2006\*

Hav Dujeswar Nath Pandey (No. 1475337W now JC-329898Y), 01 Jun 2006\*

Hav Satya Narayan Yadav (No. 1475446A now JC-329899F), 01 Jun 2006\*

Hav Nilakanta Saikia (No. 1475519F now JC-329900L),  
01 Jun 2006\*

Hav Balbir Singh (No. 1467954F now JC-329901N),  
01 Jun 2006\*

Hav Arvind Kumar Singh (No. 1467738N now JC-329902W), 01 Jun 2006\*

Hav Rajendra Singh (No. 1471621M now JC-329903Y),  
01 Jun 2006\*

Hav Rajesh Thakur (No. 1481771W now JC-329904F),  
01 Jun 2006\*

Hav Surendra Nath Tiwari (No. 1465411W now JC-329905K), 01 Jun 2006\*

Hav Ram Sarup (No. 1472884X now JC-329906M),  
03 Jun 2006\*

#### To be Nb Sub Ck (GD)

Hav Ram Niwas Tiwari (No. 1472335X now JC-329907P),  
03 Jun 2006\*

Hav Surendra Singh Bisht (No. 1472348P now JC-329908X), 01 Jun 2006\*

Hav Vinay Kumar Pathak (No. 1472352X now JC-329909A), 05 Jun 2006\*

Hav Arun Kumar Gurung (No. 1472360W now JC-329910P), 01 Jun 2006\*

Hav Birendra Kumar Sharma (No. 1472365P now JC-329911X), 01 Jun 2006\*

Hav Dharamvir Singh (No. 1472364M now JC-329912A),  
01 Jun 2006\*

#### To be Nb Sub Skt

Hav Chandra Prakash (No. 1483977M now JC-329913H),  
23 Jun 2006\*

@(Gtd seniority in the rank of Nb wef 01 Jun 2002 with  
effect on pay & allces).

\$(Gtd seniority in the rank of Nb wef 01 Dec 2005 with  
effect on pay & allces).

\$(Gtd seniority in the rank of Nb wef 24 Feb 2006 with  
effect on pay & allces).

\$(Gtd seniority in the rank of Nb wef 01 May 2006 with  
effect on pay & allces).

\$(Gtd seniority in the rank of Nb wef 01 Jun 2006 with  
effect on pay & allces).

#### BOMBAY ENGINEER GROUP

#### To be Nb Sub (GD)

Hav(GD) Mohammad Salim (No. 1567365A now JC-350289H), 14 Jun 2006

Hav(GD) Bharat Singh (No. 1567832M now JC-350290X), 01 May 2006

Hav(GD) Sukhwant Singh (No. 1568952X now JC-350291A), 23 May 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006  
with effect on pay & allces).

Hav(GD) More Suresh Baburao (No. 1569022H now JC-350295W), 01 Jun 2006

Hav(GD) Hira Singh (No. 1569081P now JC-350296Y),  
06 Jun 2006

Hav(GD) Harish Singh Dhapola (No. 1569454X now JC-350297F), 03 Jun 2006



Hav(GD) Yadav Sambhaji Kashinath (No. 1570243F now JC-350298K), 03 Jun 2006

Hav(GD) Jagdish Singh (No. 1570602K now JC-350299M), 01 Jun 2006

Hav(GD) Abdul Wahid (No. 1570898N now JC-350300W), 17 Jun 2006

Hav(GD) Jit Singh (No. 1572117N now JC-350301Y), 08 Jun 2006

Hav(GD) Kundan Singh Koranga (No. 1572728H now JC-350302F), 01 Jun 2006

Hav(GD) Sabbuddin Khan (No. 1555266L now JC-350303K), 01 Jun 2006

Hav(GD) Markanday Singh (No. 1559296A now JC-350304M), 03 Jun 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay & allces).

Hav (GD) Amar Nath (No. 1567201K now JC-350259L), 03 Feb 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay & allces).

Hav (GD) Bhiungade Laxman Maruti (No. 1568534H now JC-350261H), 04 May 2006

Hav (GD) Mane Ashok Mansingh (No. 1571178Y now JC-350262L), 03 Feb 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay & allces).

Hav (GD) Kasar Ankush Dhondiba (No. 1558218W now JC-350263N), 10 Apr 2006

Hav (GD) Hansa Singh (No. 1559280P now JC-350264W), 13 Apr 2006

Hav (GD) Kolekar Ashok Ramchandra (No. 1559299N now JC-350265Y), 18 Apr 2006

Hav (GD) Viram Singh (No. 1559675W now JC-350266F), 19 Apr 2006

Hav (GD) Shande Dayaneshwar Narayan Rao (No. 1568212H now JC-350267K), 19 Apr 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay & allces).

Hav (GD) Khavare Chandrakant Dhondiba (No. 1566910M now JC-350269P), 01 May 2006

Hav (GD) Garib Dass (No. 1567041P now JC-350270K), 01 May 2006

Hav (GD) Krishna Singh (No. 1567440Y now JC-350271M), 01 May 2006

Hav (GD) Manmohan Singh (No. 1567629W now JC-350272P), 01 May 2006

Hav (GD) Duke Sanjay Trambak (No. 1568087K now JC-350273X), 01 May 2006

Hav (GD) Manjit Singh (No. 1568351M now JC-350274A), 03 May 2006

Hav (GD) Kirpal Singh (No. 1568398X now JC-350275H), 03 May 2006

Hav (GD) Harwinder Singh (No. 1568410N now JC-350276L), 01 May 2006

Hav (GD) Amrik Singh Pawar (No. 1568439W now JC-350277N), 01 May 2006

Hav (GD) Mewa Singh (No. 1568546X now JC-350278W), 17 May 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay & allces).

Hav (GD) Ram Sewak Suman (No. 1570423K now JC-350281W), 01 Jun 2006

Hav (GD) Daya Shankar Parwat (No. 1572571N now JC-350282W), 01 June 2006

Hav (GD) Fadatare Vijay Waman (No. 1577053X now JC-350283F), 02 June 2006

Hav (GD) Mangesh Kadam (No. 1584873M now JC-350284K), 01 June 2006

Hav (GD) Bodh Singh (No. 1558502M now JC-350285M), 01 June 2006

Hav (GD) Jadhav Maruti Shivaram (No. 1566954K now JC-350286P), 01 June 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2006 without effect on pay & allces).

To be Nb Sub (Clk/GD)

Hav (Clk/GD) Keshava Kumar (No. 1572497X now JC-350260A), 27 Apr 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay & allces).

Hav (Clk/GD) Pratap Singh (No. 1575204M now JC-350279Y), 01 June 2006

Hav (Clk/GD) Laxmi Shankar (No. 1575214W now JC-350280N), 01 June 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June 2006 with pay & allces).

## To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Deeki Nandan (No. 1586442W now JC-350268M), 19 May 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2006 without effect on pay & allces).

## To be Nb Sub (Clk/GD)

Hav (Clk/GD) Jai Prakash (No. 1572843H now JC-350288A), 10 July 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay & allces).

Hav (Clk/GD) Ashok Kumar Misra (No. 1575153K now JC-350292H), 01 June 2006

Hav (Clk/GD) Bhagwan Dass (No. 1575193L now JC-350293L), 15 June 2006

Hav (Clk/GD) Veerendra Singh (No. 1575215Y now JC-350294N), 06 June 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June 2006 without effect on pay & allces).

Hav (Clk/GD) Rajan C (No. 1575226L now JC-350305P), 01 July 2006

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2006 without effect on pay & allces).

## Madras Engineer Group

## To be Nb Sub (GD)

Rank, Name, Army No. and JC No. and Date of Promotion

Hav/GD M Pandia Rajan (No. 1375731K now JC-308495L), 01 May 2006@

Hav/GD R Prakash (No. 1376432X now JC-308496N), 15 May 2006@

Hav/GD T Manthira Pandey (No. 1376082W now JC-308509A), 01 June 2006#

Hav/GD Y Srinivas (No. 1381231H now JC-308510P), 12 June 2006#

Hav/GD Radhakrishnan P (No. 1384165W now JC-308511X), 01 June 2006#

Hav/GD S Muniswamy Babu (No. 1375337Y now JC-308512A), 02 June 2006#

Hav/GD Pachappan V (No. 1382818N now JC-308513H), 02 June 2006#

Hav/GD K Abubukkar Shareef (No. 1380729W now JC-308514L), 01 June 2006#

Hav/GD Sasidharan PP (No. 1382314A now JC-308515N), 02 June 2006#

Hav/GD P Verabhadhrudu (No. 1375614Y now JC-308527H), 01 July 2006\$

Hav/GD Varghese CD (No. 1381448M now JC-308528L), 03 July 2006\$

Hav/GD B Yeshaiah (No. 1378956X now JC-308530H), 01 July 2006\$

Hav/GD Manikantan P (No. 1378247H now JC-308531L), 01 July 2006\$

Hav/GD P Venkatesan (No. 1376139A now JC-308532N), 01 July 2006\$

Hav/GD K Sigamani (No. 1377199F now JC-308533W), 03 July 2006\$

Hav/GD R Kesawan (No. 1377372A now JC-308534Y), 03 July 2006\$

Hav/GD A K Rajendran (No. 1378044Y now JC-308535F), 01 July 2006\$

Hav/GD Ravendran KG (No. 1378475L now JC-308537M), 01 July 2006\$

Hav/GD K Hari Kumar (No. 1378573L now JC-308538P), 03 July 2006\$

Hav/GD L Paramasivan (No. 1378587L now JC-308539X), 01 July 2006\$

Hav/GD Mohan Kumar S (No. 1378599A now JC-308540M), 01 July 2006\$

Hav/GD G Suban Saheb (No. 1378614K now JC-308541P), 10 July 2006\$

Hav/GD Ratheesh Kumar DB (No. 15316214L now JC-308542X), 28 July 2006%

Hav/GD Manoj Augustine (No. 15318722A now JC-308543A), 03 Aug 2006%

Hav/GD Annaiah N (No. 1378667H now JC-308551Y), 01 Aug 2006&

Hav/GD Rajendiran G (No. 1378701X now JC-308552F), 01 Aug 2006&

Hav/GD Manjunath I (No. 1378887M now JC-308553K), 01 Aug 2006&

Hav/GD K Kumar (No. 1379179M now JC-308555P), 01 Aug 2006&

Hav/GD M Krishnan (No. 1379253H now JC-308556X),  
10 Aug 2006&

Hav/GD Vijaya Kumar T (No. 1379638A now JC-308557A), 01 Aug 2006&

Hav/GD Prasanthan D (No. 1379882A now JC-308558H),  
01 Aug 2006&

Hav/GD Suresh PC (No. 1380045A now JC-308559L),  
01 Aug 2006&

Hav/GD M Murugesan (No. 1380097W now JC-308561H), 01 Aug 2006&

Hav/GD Rajeevan Choori (No. 15313634A now JC-308563N), 01 Aug 2006&

%(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Oct 2005 without effect on pay and allces).

@(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2006 without effect on pay and allces).

%(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June 2006 without effect on pay and allces).

\$(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2006 without effect on pay and allces).

&(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allces).

To be Nb Sub Clks (GD)

Rank/Trade, Name, Personnel No., JC No. Allotted &  
Promotion to Nb Sub

Hav(ClK/GD) Subhash Chandra (No. 15306295H now JC-308316A), 01 Sep 2005\*

Hav(ClK/GD) Sanatan Mandal (No. 15306303W now JC-308317H), 01 Sep 2005\*

Hav(ClK/GD) Ajaikumar PV (No. 15306307M now JC-308333A), 13 Oct 2005\*\*

Hav(ClK/GD) Ramesan Nair K (No. 15306347N now JC-308334H), 24 Oct 2005\*\*

Hav(ClK/GD) Anand Kumar MR (No. 15306352Y now JC-308335L), 14 Oct 2005\*\*

Hav(ClK/GD) Mohan Kumar K (No. 15306354K now JC-308336N), 17 Oct 2005\*\*

Hav(ClK/GD) Mohan Singh (No. 15304404L now JC-308339F), 02 Nov 2005\*\*

Hav(ClK/GD) Y Aaron (No. 1376769A now JC-308340W),  
20 Oct 2005\*\*

Hav(ClK/GD) Vasudev (No. 15304312Y now JC-308348H), 02 Nov 2005\*\*\*

Hav(ClK/GD) G Uthirapathi (No. 1381233N now JC-308338Y), 14 Nov 2005\*\*

Hav(ClK/GD) Sunil Kumar Singh (No. 15302059K now JC-308341Y), 12 Nov 2005\*\*

Hav(ClK/GD) Suresh Kumar Singh (No. 15304677N now JC-308350A), 01 Nov 2005\*\*\*

Hav(ClK/GD) Shankar Singh (No. 15304775N now JC-308351H), 10 Nov 2005\*\*\*

Hav(ClK/GD) Raj Kishor Sahoo (No. 15304334X now JC-308349L), 28 Nov 2005\*\*\*

Hav(ClK/GD) M Raja Moorthi (No. 1380750Y now JC-308330M), 09 Mar 2005#

Hav(ClK/GD) Peketi V Sivannarayana (No. 15303001Y now JC-308347A), 01 Dec 2005\*\*\*

Hav(ClK/GD) Sanjay Kumar (No. 15306302N now JC-308337W), 03 Dec 2005\*\*

Hav(ClK/GD) Gurdas Chand (No. 1383619M now JC-308352L), 17 Nov 2005\*\*\*

Hav(ClK/GD) Bhirgu Vishwakarama (No. 15301200N now JC-308353N), 21 Nov 2005\*\*\*

To be Nb Sub (SKTs)

Rank/Trade, Name, Personnel No., JC No. Allotted &  
Promotion to Nb Sub

Hav/SKT Mangal Singh (No. 1383177Y now JC-308346X), 26 Dec 2005\*\*\*

Hav/SKT Radheyshyam (No. 1379238N now JC-308332X), 19 Nov 2005\*\*

Hav/SKT Rajvir Singh (No. 1377683N now JC-308329X),  
14 Dec 2005##

Hav/SKT V Suryaprakash Rao (No. 1381823M now JC-308331P), 21 Nov 2005\*\*

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allces).

\*\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allces).

\*\*\* (Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces).

%(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allces).

## (Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Sep 2005 without effect on pay and allces).

## MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 583, dated 30 October 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

## To be Substantive Brigadier

IC No.	Rank	Name	Arm	D.O. Subs Brig
1	2	3	4	5
IC-33235	Col	Deepinder Singh	73 AR	03.05.2004
IC-33238	Col	Taragi GS	Rajput	03.05.2004
IC-33239	Col	Dhillon RS	AOC	11.05.2004
IC-33241	Col	Hundal BPS	AOC	20.06.2004
IC-33245	Col	Samyal YS	Mahar	20.06.2004
IC-33260	Col	DP Joshi	Arty	20.06.2004
IC-33264	Col	VK Sreedharan	Guards	01.03.05 with seniority from 01.07.04 without effect on pay and pension
IC-33294	Col	RL Sharma	Dogra	01.07.2004
IC-33295	Col	DPS Sandhu	Gren	01.07.2004
IC-33299	Col	Kumar DV	ASC	01.07.2004
IC-33326	Col	MK Mehta	Sigs	01.10.04 with seniority from 01.07.04 without effect on pay and pension
IC-33626	Col	Shitanshu Mishra	Sigs	01.10.04 with seniority from 01.07.04 without effect on pay and pension
IC-33638	Col	AK Srivastava	Sigs	01.02.05 with seniority from 01.07.04 without effect on pay and pension
IC-30322	Col	YV Mohan	EME	15.04.05 with seniority from 01.07.04 without effect on pay and pension
IC-30325	Col	RS Rana	Arty	28.12.04 with seniority from 01.07.04 without effect on pay and pension
IC-30326	Col	Singh AK	Bihar	01.07.2004
IC-30327	Col	Inderpal Singh	65 AR	01.07.2004
IC-30330	Col	Siwach PS	Guards	01.07.2004
IC-30331	Col	Handa TS	Para	01.07.2004
IC-30333	Col	Paul P, VSM	4 GR	02.07.2004
IC-30337	Col	Bhatt VK, SM, VSM	Engrs	16.07.2004
IC-30338	Col	Singh SP	Jakli	29.07.2004
IC-30342	Col	Guha Abhijit	Arty (GC)	01.08.2004
IC-30346	Col	Sood Daljit	68 AR	01.08.2004
IC-30348	Col	RK Sharma	EME	15.04.05 with seniority from 01.08.04 without effect on pay and pension
IC-30351	Col	Dalbir Singh Suhag	5 GR	01.08.2004
IC-30353	Col	Hasnain SA, VSM*	Garh Rif	01.08.2004

IC No.	Rank	Name	Arm	D.O. Subs Brig
1	2	3	4	5
IC-30354	Col	GS Julka	EME	01.12.05 with seniority from 01.08.04 without effect on pay and pension
IC-30357	Col	Magej Singh	Arty	01.08.2004
IC-30374	Col	Nagendar Singh	Raj Rif	01.08.2004
IC-30375	Col	Gill PS	ASC	01.08.2004
IC-30380	Col	NS Vidyarthi	Arty	01.08.2004
IC-30383	Col	Dhillon TS	Guards	01.08.2004
IC-30386	Col	Poonia BL, VSM	Guards	01.08.2004
IC-30389	Col	Chachra Sanjiv	Rajput	03.08.2004
IC-30392	Col	Dastane RP	Arty (GC)	03.08.2004
IC-30400	Col	Srivastava A	Ad Arty	26.08.2004
IC-30403	Col	Rakesh Sharma	Sikh	01.09.2004
IC-30406	Col	Puri Vikram	Ad Arty (GC)	01.09.2004
IC-30407	Col	MNK Kashid	Arty	01.09.2004
IC-30408	Col	VK Narula	Arty	01.09.2004
IC-30416	Col	PP Toor	Sikh LI	01.09.2004
IC-30418	Col	Anil Gupta	Madras	01.09.2004
IC-30435	Col	Ravi N Varman	Arty	01.09.2004
IC-30437	Col	Malhotra KD	Ad Arty	01.09.2004
IC-30442	Col	Baunthiyal NC	Ad Arty	10.09.2004
IC-30462	Col	Chabbewal AS, YSM	67 AR	10.09.2004
IC-30464	Col	Vardhan RH	Arty (GC)	11.09.2004
IC-30465	Col	Nirmolak Singh	EME	15.04.05 with seniority from 16.09.04 without effect on pay and pension
IC-30485	Col	Umong Sethi	Sikh	01.10.2004
IC-30507	Col	Chopra Sanjeev	Guards	01.10.2004
IC-30516	Col	Kuldip Singh	Ad Arty	01.10.2004
IC-30521	Col	Vijeshwer SK	Arty (GC)	01.10.2004
IC-30547	Col	Koshal MS	Mahar	01.10.2004
IC-30561	Col	DK George	Arty	01.10.2004
IC-30571	Col	Datt Rajeev	Engrs	01.10.2004
IC-30574	Col	Singh, JP, SC	Ad Arty	01.10.2004
IC-30581	Col	Pattar MR	MLI	01.10.2004
IC-30585	Col	MS Boora	Arty	01.10.2004
IC-30612	Col	SS Nair	AEC	01.12.04 with seniority from 01.10.04 without effect on pay and pension

IC No.	Rank	Name	Arm	D.O. Subs Brig
1	2	3	4	5
IC-30618	Col	SS Parmar	AEC	01.01.05 with seniority from 01.10.04 without effect on pay and pension
IC-31907	Col	AD Kaushal	Engrs	01.10.2004
IC-31908	Col	Sunit Kumar	Sigs	01.02.05 with seniority from 01.10.04 without effect on pay and pension
IC-31910	Col	PK Jaggia	EME	01.05.05 with seniority from 02.10.04 without effect on pay and pension
IC-31917	Col	SM Mehta, SM	EME	05.05.05 with seniority from 11.10.04 without effect on pay and pension
IC-31929	Col	JJS Bhalla	Engrs	18.10.2004
IC-31946	Col	RK Nambiar	EME	01.05.05 with seniority from 26.10.04 without effect on pay and pension
IC-31962	Col	VP Srivastava	Sigs	15.04.05 with seniority from 01.11.04 without effect on pay and pension
IC-31968	Col	Jatender Singhla	EME	01.05.05 with seniority from 01.11.04 without effect on pay and pension
IC-33431	Col	HPS Bedi	Jak Rif.	01.11.2004
IC-33434	Col	Singh VP	Kumaon	01.11.2004
IC-33435	Col	Maan Singh, VSM	Guards	01.11.2004
IC-33439	Col	AK Vyas	AOC	01.11.2004
IC-33450	Col	Chowdhary DL, VSM	Jat	01.11.2004
IC-33454	Col	OP Soni	Arty	01.11.2004
IC-33474	Col	Pathania OPS	Madras	01.11.2004
IC-33499	Col	Jamwal RS, SM, VSM	Rajput	21.11.2004
IC-33520	Col	Kishan Singh	9 GR	21.11.2004
IC-33533	Col	Malik Satish	MLI	23.11.2004
IC-33543	Col	CJ Lawrence, SM, VSM	Para	01.12.2004
IC-33554	Col	VK Dhall	Arty	01.12.2004
IC-33557	Col	R Enayathulla	Inf	01.12.2004
IC-33708	Col	SP Singh	Int	01.12.2004
IC-36703	Col	AK Bali	Sigs	15.04.05 with seniority from 01.12.04 without effect on pay and pension
IC-36711	Col	Swamy SN	Engrs	01.12.2004
IC-36718	Col	VR Sobti	Sigs	15.04.05 with seniority from 01.12.04 without effect on pay and pension
IC-30681	Col	Pathak AK	81 AR	01.12.2004

IC No.	Rank	Name	Arm	D.O. Subs Brig
1	2	3	4	5
IC-30682	Col	Manvender Singh	Guards	15.04.05 with seniority from 01.12.04 without effect on pay and pension
IC-30683	Col	Rameshwar Yadav	Raj Rif	01.12.2004
IC-30686	Col	MA Naik, SM	Engrs	01.12.2004
IC-30687	Col	Sanjiv Langer	69 AR	01.12.2004
IC-30688	Col	Aulakh NS	90 AR	01.12.2004
IC-30692	Col	AK Kalia	EME	01.06.05 with seniority from 01.12.04 without effect on pay and pension
IC-30697	Col	SV Bhide, VSM	Para	01.12.2004
IC-30701	Col	AT Parnaik	Engrs	16.12.2004
IC-30702	Col	P Campose	Mech Inf	01.01.2005
IC-30703	Col	Anil Harnal	Engrs	01.01.2005
IC-30705	Col	RB Singh	Engrs	01.01.2005
IC-30706	Col	Ranvir Yadav	Kumaon	01.01.2005
IC-30708	Col	AK Choudhary	Mahar	01.01.2005
IC-30709	Col	AV Subramanian	EME	01.07.05 with seniority from 01.01.05 without effect on pay and pension
IC-30714	Col	Samarjeet Singh	Rajput	01.01.2005
IC-30722	Col	V Sharma	Engrs	01.01.2005
IC-30723	Col	Ashok Singh, VSM	Guards	01.01.2005
IC-30726	Col	NK Panwar	Engrs	01.01.2005
IC-30727	Col	TS Gill, SM, VSM	Para	07.01.2005
IC-30730	Col	Kuljit Singh	EME	01.08.05 with seniority from 10.01.05 without effect on pay and pension
IC-30733	Col	HJK Selva, VSM	5 GR	16.01.2005
IC-30735	Col	Anil Nanda	Arty	16.01.2005
IC-30736	Col	Jatinder Sikand	Engrs	16.01.2005
IC-30744	Col	BB Patil	Jak LI	16.01.2005
IC-30745	Col	RS Chand	Mech Inf	01.02.2005
IC-30751	Col	Mittra Jaideep	ASC	01.02.2005
IC-30752	Col	JG Bagoool	Arty	01.02.2005
IC-30756	Col	D Sinha	Para	01.02.2005
IC-30763	Col	Rajesh Singh	Arty (GC)	01.02.2005
IC-30766	Col	Somana Goudar VS, VSM	MLI	01.02.2005
IC-30769	Col	S Laumas, VSM	Dogra	01.02.2005

IC No.	Rank	Name	Arm	D.O. Subs Brig
1	2	3	4	5
IC-30783	Col	Malhotra Anil	ASC	18.05.05 with seniority from 01.02.05 without effect on pay and pension
IC-30788	Col	PR Sangam, SM	Sikh	18.05.05 with seniority from 01.02.05 without effect on pay and pension
IC-30811	Col	MP Yadav, VSM	Engrs	01.02.2005
IC-30814	Col	IK Kanwar, SM, VSM	Arty	01.02.2005
IC-30816	Col	GN Mathur	Rajput	03.02.2005
IC-30817	Col	AK Chaturvedi	Engrs	16.02.2005
IC-30819	Col	DK Jamwal	Sikh	01.03.2005
IC-30832	Col	Panigrahi GP	ASC	01.03.2005
IC-30840	Col	NG George	Garh Rif	15.04.05 with seniority from 01.03.05 without effect on pay and pension
IC-30872	Col	SK Chatterji	Arty	01.03.2005
IC-30892	Col	YS Rawat	8 GR	28.10.05 with seniority from 01.03.05 without effect on pay and pension
IC-30894	Col	RK Mohan	Arty	01.03.2005
IC-30897	Col	Rao KR, VSM	AOC	01.03.2005
IC-30930	Col	Harish Arora	Arty	01.03.2005
IC-30933	Col	AK Jairath	Engrs	01.03.2005
IC-34253	Col	JC Kushalappa	Engrs	11.03.2005
IC-34260	Col	SK Sharma	Engrs	15.04.2005
IC-34277	Col	Sunil Kumar	EME	01.08.05 with seniority from 01.04.05 without effect on pay and pension
IC-34292	Col	GD Chadha	Engrs	01.04.2005

NK PHUKAN  
AMS/MS(X)

(ARMY BRANCH)

No. 584, dated 26 October 2006.—The President is pleased to re-employ the under mentioned JCOs on the active list in the rank and date specified :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

In the Rank of Subedar Major (GD)

Sub Major Bikram Singh (JC-181726P), Formerly Bde of the Guards, 08 Oct 2005

Sub Major Surendra Singh Kanwasi (JC-173887H), Formerly The Garhwal Rifles, 08 Oct 2005

Sub Major Swarn Singh (JC-182908P), Formerly Bde of the Guards, 07 Jan 2006

In the rank of Subedar (GD)

Sub Kannappan A (JC-168514L), Formerly The Madras Regt, 01 May 2005

Sub Raj Narayan Singh (JC-558372Y), Formerly Bihar Regt, 01 May 2005

Sub Rajendra Kumar Thapa (JC-218580M), Formerly 5 GR(F), 08 Oct 2005

Sub Budhi Chand Sooraj (JC-578743X), Formerly Jak Rif, 08 Oct 2005

Sub Manbahadur Poon (JC-612125F), Formerly 4 GR, 09 Oct 2005

Sub Naman Singh Thapa (JC-623021A), Formerly 8 GR, 07 Jan 2006



Sub Surendra Singh (JC-528600F), Formerly Garhwal Rifles, 08 Jan 2006

Sub Manmohan Singh (JC-177522L), Formerly The Punjab Regt, 09 Jan 2006

Sub Santokh Singh (JC-57881A), Formerly Jak Rif, 09 Jan 2006

In the rank of Nb Sub (GD)

Nb Sub Shivanand Singh (JC-841815X), Formerly Indian Navy, 05 Mar 2005

Nb Sub Ainal Haque (JC-747773X), Formerly EME, 16 Jul 2005

Nb Sub Pyar Chand Chouhan (JC-518854L), Formerly The Dogra Regt, 07 Jan 2006

Nb Sub Dhananter Singh (JC-592049W), Formerly Jak LI, 07 Jan 2006

Nb Sub Amarendra Kumar Amar (JC-841964L), Formerly Indian Navy, 07 Jan 2006

T. K. M. PILLAI  
Under Secy.

#### ARMY BRANCH

#### CORRIGENDUM

No. 585, dated 25 Oct 2006—In the Government of India, Ministry of Defence, Notification published in the Gazette of India Ser No. 29 dated 21 Jul 2001 (Page No. 873), 11 dated 16 Mar 2002 (Page No. 376), 43 dated 26 Oct 2002 (Page No. 1588), 16 dated 19 Apr 2003 (Page No. 508 & 509), 32 dated 09 Aug 2003, 44 dated 01 Nov 2003, 03 dated 15 Jan 2005 (Page No. 132) and 23 dated 04 Jun 2005 (Page No. 813) under heading 'REGULAR ARMY', INFANTRY, SPECIAL LIST, THE PUNJAB REGIMENT, Sub heading To be Nb Subedar Clerks are hereby amended as under :—

For : Hav Clk Adarsh Kumar (2470904X now JC-428993N), 01 Dec 2000

(Granted ante dated seniority wef 12 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Adarsh Kumar (2470904X now JC-428993N), 01 Dec 2000

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Kamal Singh (2471007N now JC-428994W), 01 Dec 2000

(Granted ante dated seniority wef 12 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Kamal Singh (2471007N now JC-428994W), 01 Dec 2000

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Subash Chander Sanmotra (2471266W now JC-428997K), 11 Dec 2000

(Granted ante dated seniority wef 01 Dec 2000 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Subash Chander Sanmotra (2471266W now JC-428997K), 11 Dec 2000

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Radhey Sham Saini (2471268F now JC-428998M), 01 Jan 2001

(Granted ante dated seniority wef 01 Jan 2001 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Radhey Sham Saini (2471268F now JC-428998M), 01 Jan 2001

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Jagdish Chand (2470192A now JC-428995Y), 29 Nov 2000

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2000 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Jagdish Chand (2470192A now JC-428995Y), 29 Nov 2000

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Baldev Singh (2470948P now JC-428996F), 22 Nov 2000

(Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2000 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Baldev Singh (2470948P now JC-428996F), 22 Nov 2000

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Tarlok Singh (2471283W now JC-428999P), 05 Jan 2001

(Granted ante dated seniority wef 01 Jan 2001 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Tarlok Singh (2471283W now JC-428999P), 05 Jan 2001

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Dinesh Kumar Sharma (2471411H now JC-429029Y), 01 Mar 2001

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2001 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Dinesh Kumar Sharma (2471411H now JC-429029Y), 01 Mar 2001

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Randhir Singh (2471441A now JC-429030N), 01 Mar 2001

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2001 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Randhir Singh (2471441A now JC-429030N), 01 Mar 2001

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Roshan Lal (2471469A now JC-429037X), 01 Apr 2001

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2001 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Roshan Lal (2471469A now JC-429037X), 01 Apr 2001

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Mohinder Singh Dogra (2471615P now JC-429041A), 01 Apr 2001

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2001 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Mohinder Singh Dogra (2471615P now JC-429041A), 01 Apr 2001

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Dhian Chand Thakur (2471732A now JC-429042H), 26 Apr 2001

(Granted ante dated seniority wef 01 Apr 2001 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Dhian Chand Thakur (2471732A now JC-429042H), 26 Apr 2001

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Surjeet Kumar (2471750H now JC-429080Y), 01 May 2001

(Granted ante dated seniority wef 01 May 2001 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Surjeet Kumar (2471750H now JC-429080Y), 01 May 2001

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Uttam Chand (2471761P now JC-429063Y), 01 Jun 2001

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2001 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Uttam Chand (2471761P now JC-429063Y), 01 Jun 2001

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Dev Dutt (2471805F now JC-429114F), 09 Jul 2001

(Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2001 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Dev Dutt (2471805F now JC-429114F), 09 Jul 2001

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Mast Ram Verma (2471808P now JC-429115K), 01 Aug 2001

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2001 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Mast Ram Verma (2471808P now JC-429115K), 01 Aug 2001

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Bhagwan Dass Sharma (2471904K now JC-429116M), 01 Aug 2001

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2001 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Bhagwan Dass Sharma (2471904K now JC-429116M), 01 Aug 2001

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Hardeep Singh (2472056H now JC-429195M), 01 Mar 2002

(Granted ante dated seniority wef 01 Feb 2002 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Hardeep Singh (2472056H now JC-429195M), 01 Mar 2002

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2002 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Ram Krishan (2472097M now JC-429196P), 01 Mar 2002

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2002 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Ram Krishan (2472097M now JC-429196P), 01 Mar 2002

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Gauri Dutt Sharma (2472145F now JC-429203A), 01 Apr 2002

(Granted ante dated seniority wef 01 Mar 2002 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Gauri Dutt Sharma (2472145F now JC-429203A), 01 Apr 2002

(Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Rajender Prakash (2472158Y now JC-429295X), 24 Aug 2002 (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2002 without effect on pay and Allowances)	For : Hav Clk Sat Paul (2472571P now JC-429345X), 20 Jan 2003 (Granted ante dated seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and Allowances)
Read : Hav Clk Rajender Prakash (2472158Y now JC-429295X), 24 Aug 2002 (Granted ante dated seniority wef 07 Jun 2000 without effect on pay and Allowances)	Read : Hav Clk Sat Paul (2472571P now JC-429345X), 20 Jan 2003 (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)
For : Hav Clk Dilbag Singh (2472275K now JC-429279A), 07 Sep 2002 (Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2002 without effect on pay and Allowances)	For : Hav Clk Hardit Singh (2472710N now JC-429346A), 23 Jan 2003 (Granted ante dated seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and Allowances)
Read : Hav Clk Dilbag Singh (2472275K now JC-429279A), 07 Sep 2002 (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)	Read : Hav Clk Hardit Singh (2472710N now JC-429346A), 23 Jan 2003 (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)
For : Hav Clk Moti Lal (2472305W now JC-429280P), 07 Sep 2002 (Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2002 without effect on pay and Allowances)	For : Hav Clk Mahender Singh (2472726Y now JC-429388M), 01 May 2003 (Granted ante dated seniority wef 01 May 2003 without effect on pay and Allowances)
Read : Hav Clk Moti Lal (2472305W now JC-429280P), 07 Sep 2002 (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)	Read : Hav Clk Mahender Singh (2472726Y now JC-429388M), 01 May 2003 (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)
For : Hav Clk Jagdish Chand Sharma (2472404Y now JC-429318N), 03 Dec 2002 (Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and Allowances)	For : Hav Clk Anil Kumar (2472872Y now JC-429410M), 01 May 2003 (Granted ante dated seniority wef 01 May 2003 without effect on pay and Allowances)
Read : Hav Clk Jagdish Chand Sharma (2472404Y now JC-429318N), 03 Dec 2002 (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)	Read : Hav Clk Anil Kumar (2472872Y now JC-429410M), 01 May 2003 (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)
For : Hav Clk Jarnial Singh Vashist (2472416N now JC-429296A), 16 Oct 2002 (Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and Allowances)	For : Hav Clk Nirmal Singh (2472934N now JC-429433N), 03 Jun 2003 (Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2003 without effect on pay and Allowances)
Read : Hav Clk Jarnial Singh Vashist (2472416N now JC-429296A), 16 Oct 2002 (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)	Read : Hav Clk Nirmal Singh (2472934N now JC-429433N), 03 Jun 2003 (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)
For : Hav Clk Shaloken Chand Jaswal (2472419F now JC-429344P), 24 Jan 2003 (Granted ante dated seniority wef 01 Oct 2003 without effect on pay and Allowances)	For : Hav Clk Ramesh Chander (2473197K now JC-429411P), 13 Jun 2003 (Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2003 without effect on pay and Allowances)
Read : Hav Clk Shaloken Chand Jaswal (2472419F now JC-429344P), 24 Jan 2003 (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)	Read : Hav Clk Ramesh Chander (2473197K now JC-429411P), 13 Jun 2003 (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Shri Chand (2471468X now JC-429434W), 28 Jun 2003  (Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2003 without effect on pay and Allowances)	For : Hav Clk Surjit Singh (2474049L now JC-429438M), 06 Aug 2003  (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2003 without effect on pay and Allowances)
Read : Hav Clk Shri Chand (2471468X now JC-429434W), 28 Jun 2003  (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)	Read : Hav Clk Surjit Singh (2474049L now JC-429438M), 06 Aug 2003  (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)
For : Hav Clk Krishan Dev Kathiala (2471735N now JC- 429412X), 13 Jun 2003 -  (Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2003 without effect on pay and Allowances)	For : Hav Clk Atma Ram Mishra (2473604F now JC- 429439P), 06 Aug 2003  (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2003 without effect on pay and Allowances)
Read : Hav Clk Krishan Dev Kathiala (2471735N now JC- 429412X), 13 Jun 2003  (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)	Read : Hav Clk Atma Ram Mishra (2473604F now JC- 429439P), 06 Aug 2003  (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)
For : Hav Clk Jai Pal Singh (2473530X now JC-429435Y), 01 Jul 2003  (Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2003 without effect on pay and Allowances)	For : Hav Clk Satal Dahiya (2475862A now JC-429575L), 01 Jun 2004  (Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2004 without effect on pay and Allowances)
Read : Hav Clk Jai Pal Singh (2473530X now JC-429435Y), 01 Jul 2003  (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)	Read : Hav Clk Satpal Dahiya (2475862A now JC- 429575L), 01 Jun 2004  (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)
For : Hav Clk Surinder Kumar Rana (2473742H now JC- 429436F), 01 Jul 2003  (Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2003 without effect on pay and Allowances)	For : Hav Clk Banke Lal Ram (2475870Y now JC- 429576N), 01 Jun 2004  (Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2004 without effect on pay and Allowances)
Read : Hav Clk Surinder Kumar Rana (2473742H now JC- 429436F), 01 Jul 2003  (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)	Read : Hav Clk Banke Lal Ram (2475870Y now JC- 429576N), 01 Jun 2004  (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)
For : Hav Clk Chander Shekhar Bourai (2473842N now JC-429437K), 01 Jul 2003  (Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2003 without effect on pay and Allowances)	For : Hav Clk Ram Chander (2475877H now JC- 429548F), 01 Jun 2004  (Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2004 without effect on pay and Allowances)
Read : Hav Clk Chander Shekhar Bourai (2473842N now JC-429437K), 01 Jul 2003  (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)	Read : Hav Clk Ram Chander (2475877H now JC- 429548F), 01 Jun 2004  (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)
For : Hav Clk Madal Lal Sharma (2473935H now JC- 429547Y), 20 May 2004  (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2003 without effect on pay and Allowances)	For : Hav Clk Agith V (2475878L now JC-429549K), 01 Jun 2004  (Granted ante dated seniority wef 01 Jun 2004 without effect on pay and Allowances)
Read : Hav Clk Madal Lal Sharma (2473935H now JC- 429547Y), 20 May 2004  (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)	Read : Hav Clk Agith V (2475878L now JC-429549K), 01 Jun 2004  (Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Pradeep Kumar Thakur (2476500L now JC-429577W), 01 Jul 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2004 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Pradeep Kumar Thakur (2476500L now JC-429577W), 01 Jul 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Thambi PD (2476561H now JC-429621P), 23 Jul 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2004 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Thambi PD (2476561H now JC-429621P), 23 Jul 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Surinder Kumar (2476562L now JC-429622X), 01 Jul 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Jul 2004 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Surinder Kumar (2476562L now JC-429622X), 01 Jul 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Gurcharan Singh Sandhu (2476557X now JC-429654A), 01 Aug 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2004 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Gurcharan Singh Sandhu (2476557X now JC-429654A), 01 Aug 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Anil Kumar (2476616F now JC-429655H), 28 Aug 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2004 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Anil Kumar (2476616F now JC-429655H), 28 Aug 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Sita Ram (2476694Y now JC-429656L), 01 Sep 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2004 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Sita Ram (2476694Y now JC-429656L), 01 Sep 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Sarwan Singh Mann (2476919W now JC-429657N), 01 Sep 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2004 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Sarwan Singh Mann (2476919W now JC-429657N), 01 Sep 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Phool Chandra Tiwari (2476920L now JC-429658W), 01 Sep 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2004 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Phool Chandra Tiwari (2476920L now JC-429658W), 01 Sep 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)

For : Hav Clk Tara Chand (2476637X now JC-429659Y), 01 Sep 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Sep 2004 without effect on pay and Allowances)

Read : Hav Clk Tara Chand (2476637X now JC-429659Y), 01 Sep 2004

(Granted ante dated seniority wef 01 Aug 2000 without effect on pay and Allowances)

DIWAKAR  
Under Secy.

#### REGULAR ARMY (SPECIAL COMMISSION)

##### CORRIGENDUM

No. 586, the 27th October 2006.—1. Para 1 of the Gazette Notification published on 15 December 2001 may please be amended as under :—

“The under mentioned JCOs/NCOs of SCO-04 Course are granted permanent commission (Special Commission) in the Arms/Services are shown against their names in the rank of Lt under the provisions of AI 5/97 with effect from 13 May 2000. The seniority of the officers of SCO-04 Course will reckon wef 10 Jun 2000 as per AI 8/2001”.

For officers of personal (No. SC-00270P to SC-00288L).

SK SHARMA  
Lt Col  
AMS 8B